



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10—जुलाई 16, 2010 (आषाढ़ 19, 1932)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10—JULY 16, 2010 (ASADHA, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2010

सं. 365, दिनांक 11 जून 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

डोगरा रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार केवल सिंह (जेसी-519655के), 07 जुलाई 2009+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

सूबेदार पालदेन ग्याछो, शौर्य चक्र (जेसी-519631ए), 01 जुलाई 2009

सूबेदार परवीन कुमार (जेसी-519864एफ), 01 जुलाई 2009

सूबेदार सुनीत सिंह (जेसी-519720वाई), 10 अगस्त 2009+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्यारे लाल (जेसी-520217एन), 10 अगस्त 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2009 से)

नायब सूबेदार रघुपाल चन्द (जेसी-520543डब्ल्यू), 24 अगस्त 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520459डब्ल्यू), 04 अगस्त 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-520508एन), 04 अगस्त 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार परपोतम कुमार (जेसी-520515के), 10 अगस्त 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार मूल राज (जेसी-520521एक्स), 10 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-520522ए), 14 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520586एल), 04 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम चन्द (जेसी-520581एम), 19 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार बलवन्त राज (जेसी-520613के), 10 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार निर्मल सिंह, सेना मेडल (जेसी-520623एन), 17 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-520642वाई), 10 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार ज्योती प्रकाश (जेसी-520661के), 17 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520687वाई), 17 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-520725के), 29 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार पुष्पविन्दर सिंह (जेसी-520527वाई), 22 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2009 से)

नायब सूबेदार कुशल सिंह (जेसी-520329एन), 03 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2009 से)

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-520605एल), 24 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520519ए), 20 अगस्त 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से)

इन्फैन्ट्री-11 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कल्लिंद्रा प्रसाद लिम्बु, एस एम (जेसी-634267वाई),
 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार गोपाल प्रसाद प्रधान (जेसी-634136एन), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार दिल प्रसाद राई (जेसी-634240एफ), 16 जनवरी 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009 से)

सूबेदार तिल बीर राई (जेसी-634266डब्ल्यू), 18 मार्च 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009 से)

सूबेदार नरेश बहादुर (जेसी-634277एच), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार याकुप तशेरिंग लेप्चा (जेसी-634262ए), 01 जुलाई 2009

सूबेदार टेक बहादुर लिम्बु (जेसी-634108एफ), 01 अगस्त 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रन बहादुर लिम्बु (जेसी-634547एम), 20 मई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 11 अप्रैल 2008 से)

नायब सूबेदार बीर मन तामंग (जेसी-634553ए), 13 मई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 12 अप्रैल 2008 से)

नायब सूबेदार टीका बहादुर थापा (जेसी-634717एल), 12 मई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008 से)

नायब सूबेदार शिवा प्रसाद सुब्बा (जेसी-634563के), 13 मई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008 से)

नायब सूबेदार भोज कुमार राय (जेसी-634650एक्स), 20 मई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008 से)

नायब सूबेदार मोती राज लिम्बु (जेसी-634621एच), 28 जून 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 12 मई 2008 से)

नायब सूबेदार प्रेम कुमार लिम्बु (जेसी-634588डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2008 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) हर्बस लाल तल्लोत्रा (जेसी-634418एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार हेम बहादुर शाही (जेसी-634726एम), 30 अगस्त 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2008 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) बीजय पाल सिंह (जेसी-634456एच), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार नारद मनि राई (जेसी-634666एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार नबीन राई (जेसी-634696ए), 04 सितम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार कुमार राई (जेसी-634622एल), 15 सितम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) माधव श्रेष्ठा (जेसी-634476डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रेम कुमार राई (जेसी-634623एन), 03 अक्टूबर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से)

नायब सूबेदार अमन गुरुंग (जेसी-634668एच), 26 नवम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से)

नायब सूबेदार पदम बहादुर सुब्बा (जेसी-634689के), 26 नवम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से)

नायब सूबेदार राम कुमार मोकतान (जेसी-634690वाई), 26 नवम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से)

नायब सूबेदार गजेंद्र बहादुर लिम्बु (जेसी-634691एफ), 25 नवम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार दर्गाद्र कुमार श्रेष्ठा (जेसी-634701ए), 20 दिसम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार कमल कुमार राई (जेसी-634730पी), 12 नवम्बर 2008
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) मन मोहन लाल शर्मा (जेसी-634482के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्रिष्णा कुमार प्रधान (जेसी-634635एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार संता कुमार राई (जेसी-634651ए), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार युब राज लिम्बु (जेसी-634704एन), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सीता राम श्रेष्ठा (जेसी-634737वाई), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) रीयासत अली खान (जेसी-634517पी), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) राज कुमार शर्मा (जेसी-634584ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार इंद्रा बहादुर लिम्बु (जेसी-634637एन), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार प्रजित प्रधान (जेसी-634658के), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार चंद्रा प्रसाद गुरुंग (जेसी-634664एक्स), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार धर्मेंद्र सिंह बासनेट (जेसी-634636एल), 16 जनवरी 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार धन राज लिम्बु (जेसी-634665ए), 04 जनवरी 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार बिंदा प्रसाद राई (जेसी-634667एल), 02 फरवरी 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार खड्का बहादुर राई (जेसी-634710एफ), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार धन बहादुर राई (जेसी-634746ए), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार मदन कुमार श्रेष्ठा (जेसी-634638डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार त्शेरिंग तमांग (जेसी-634647एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार नैन लाल राई (जेसी-634712एम), 05 फरवरी 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009 से)

नायब सूबेदार भीम बहादुर देवान (जेसी-634732ए), 03 फरवरी 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009 से)

नायब सूबेदार हरिश चंद्र राई (जेसी-634669डब्ल्यू), 06 मार्च 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009 से)

नायब सूबेदार बुधा शोर्पा (जेसी-634678एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार जीवन राई (जेसी-634677पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर लिम्बु (जेसी-634738एफ), 13 अप्रैल 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009 से)

नायब सूबेदार चंद्र प्रसाद लिम्बु (जेसी-634679ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार तोपगे भुटिया, वी एस एम (जेसी-634721एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार दिल्ली प्रसाद राई (जेसी-634670एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार राई (जेसी-634713पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार गोपाल लींबू (जेसी-634723वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मानोज कुमार राई (जेसी-634683एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार लोक बहादुर लिम्बु (जेसी-634703एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार लोकेंद्रा लिम्बु (जेसी-634702एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार हरिश प्रधान (जेसी-634753डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार तिलक बहादुर राई (जेसी-634684एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राम बहादुर तामंग (जेसी-634685एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार असल कुमार लिम्बु, एस एम (जेसी-634686डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार रबिन कुमार लिम्बु (जेसी-634727पी), 01 जून 2009

नायब सूबेदार मनि कुमार राई (जेसी-634751के), 06 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार कर्ना बहादुर प्रधान (जेसी-634761पी), 06 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार लोक बहादुर (जेसी-634762एक्स), 06 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार भिम बहादुर राई (जेसी-634756के), 12 अगस्त 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से)

नायब सूबेदार लिला राई (जेसी-634739के), 06 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से)

नायब सूबेदार सुभा राज राई (जेसी-634780ए), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार हेम कुमार राई (जेसी-634783एन), 23 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से)

नायब सूबेदार अम्बर बहादुर राई (जेसी-634765एल), 06 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) भक्त बहादुर बिश्वकर्मा (जेसी-634604एच), 01 जुलाई 2009
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) अमर नाथ (जेसी-634653एल), 01 जुलाई 2009

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार मोहम्मद कासम (जेसी-592424डब्ल्यू), 23 मार्च 2009
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-592546ए), 18 मई 2009
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मोहम्मद सादिक (जेसी-592584डब्ल्यू), 14 जुलाई 2009
(सूबेदार मेजर रैंक में 01 जुलाई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार (लिपिक) सागर सिंह (जेसी-592744एल), 01 अगस्त 2009
(सूबेदार मेजर लिपिक रैंक में 01 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

कुमाऊँ रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार रतन सिंह देब (जेसी-539369के), 29 मई 2009/01 फरवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2009 से दी गई है)

सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जेसी-539300ए), 01 मई 2009

सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-539102पी), 01 मई 2009

सूबेदार इन्दर सिंह (जेसी-539340एफ), 01 मई 2009

नागा रेजीमेंट

सूबेदार वाई चेम्बिसे (जेसी-590037एच), 18 मई 2009/01 मई 2009*

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2009 से दी गई है)

जम्मू और काश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-579404के), जैक राईफलस, 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार रोशन लाल गुरुंग (जेसी-578867एम), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-579189के), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-579234एल), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-579707वाई), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार विनोद कुमार, एसएम (जेसी-580349एल), जैक राईफलस, 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार इरशाद खान (जेसी-580134एम), जैक राईफलस, 01 जून 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580283ए), जैक राईफलस, 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार राजकुमार (जेसी-580441के), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार सतीश चन्द (जेसी-580466डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-580473एम), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार मस्त राम शर्मा (जेसी-580477एच), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-580483डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार राजिन्द्र कुमार (जेसी-580484वाई), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-580561एच), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार भोला सिंह (जेसी-580565वाई), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार सतीश चन्द (जेसी-580494पी), जैक राईफलस, 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-580609एल), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-498750ए), 13 जुलाई 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-498764ए), 03 अगस्त 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार प्यारा सिंह (जेसी-498765एच), 03 अगस्त 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) रमेश कुमार (जेसी-498734एच), 25 जुलाई 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-499637एक्स), 31 जुलाई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-499599एम), 08 जुलाई 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुलजार सिंह (जेसी-499728एफ), 15 अगस्त 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार निधान सिंह (जेसी-499669ए), 06 अगस्त 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार (लिपिक) दिलीप कुमार (जेसी-499657एल), 01 जुलाई 2009

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-498752एल), 24 जून 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)
सूबेदार कुलदीप सिंह, एस एम (जेसी-498792एम), 18 जून 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-498787एफ), 01 जुलाई 2009
सूबेदार रत्न सिंह (जेसी-498869के), 01 जुलाई 2009
सूबेदार थाना सिंह (जेसी-498890एम), 03 जुलाई 2009
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-499570के), 09 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-499572पी), 09 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार बलजिंदर सिंह (जेसी-499592एच), 09 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार बालम सिंह (जेसी-499704एक्स), 20 अप्रैल 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मार्च 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-499769एल), 15 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार सुच्चा सिंह (जेसी-499774डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार हरजिंदर सिंह (जेसी-499702एम), 29 जून 2009
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-499573एक्स), 01 जुलाई 2009
सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) रोहताश (जेसी-499528एल), 07 जुलाई 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) उमा कांत दुबे (जेसी-499656एच), 23 जून 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

जाट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-488645डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007
सूबेदार सम्मत सिंह (जेसी-488332एक्स), 01 मार्च 2007
सूबेदार जय सिंह (जेसी-488400ए), 01 मार्च 2007
सूबेदार धर्मबीर (जेसी-488448एन), 01 अप्रैल 2007
सूबेदार गोपाल सिंह जाट (जेसी-488496एन), 01 अगस्त 2007
सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-488319एन), 01 अगस्त 2007
सूबेदार राजेन्द्र सिंह मलिक (जेसी-488642एच), 01 सितम्बर 2007
सूबेदार महाबीर प्रसाद (जेसी-488566एफ), 01 नवम्बर 2007
सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-488404डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)
सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-488476ए), 01 दिसम्बर 2007
सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-488677वाई), 01 नवम्बर 2007
सूबेदार दुलीचन्द नेहरा (जेसी-488296एक्स), 22 जनवरी 2008*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)
सूबेदार जय भगवान (जेसी-489049डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008
सूबेदार राजबीर (जेसी-488948एल), 01 जनवरी 2008
सूबेदार रूपा राम (जेसी-488911के), 01 फरवरी 2008
सूबेदार दया चन्द (जेसी-488293के), 16 अप्रैल 2008*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)
सूबेदार युद्धवीर सिंह (जेसी-488477एच), 04 मई 2008*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार चंदगी राम (जेसी-488501एन), 01 मई 2008
 सूबेदार किरन पाल सिंह (जेसी-488704एक्स), 01 मई 2008
 सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-488648के), 01 मई 2008
 सूबेदार कंचन सिंह बघेल (जेसी-488856वाई), 01 जून 2008
 सूबेदार महताब सिंह (जेसी-488422वाई), 02 मई 2008
 सूबेदार धर्मबीर सिंह (जेसी-488761वाई), 01 अगस्त 2008
 सूबेदार चांदी राम (जेसी-488827के), 01 जून 2008
 सूबेदार अलबेल सिंह, एसएम (जेसी-488829पी), 24 जुलाई 2008*
 *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
 सूबेदार प्रेम सिंह ढांडा (जेसी-488935एन), 01 अगस्त 2008
 सूबेदार राम देवा राम (जेसी-488937वाई), 03 अक्टूबर 2008*
 *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
 सूबेदार मूल चन्द (जेसी-488902एच), 22 अक्टूबर 2008*
 *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
 सूबेदार लेखराज सिंह (जेसी-488869डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2008*
 *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
 सूबेदार जगराम सिंह (जेसी-488983एन), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-489039एम), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार रामवीर सिंह (जेसी-488731एफ), 01 नवम्बर 2008
 सूबेदार राज सिंह (जेसी-488751पी), 01 जनवरी 2009
 सूबेदार सुभाष चन्द्र आर्य (जेसी-489154एम), 01 फरवरी 2009

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) महीपाल सिंह (जेसी-488389एफ), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार (लिपिक) सुधीर शर्मा (जेसी-488453वाई), 01 मई 2008

सूबेदार (लिपिक) कप्तान सिंह राठी (जेसी-488429एच), 06 जून 2008*

*(सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) जयवीर सिंह बाना (जेसी-488499एफ), 04 दिसम्बर 2008*

*(सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) अमर सिंह (जेसी-488557ए), 01 मार्च 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-489832एफ), 16 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-489847के), 20 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-489881के), 16 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-489884एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार कुमार सिंह (जेसी-489923एल), 04 जून 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार छवि नाथ (जेसी-489928के), 01 जून 2008

नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-489979एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार राम करन जाट (जेसी-489771पी), 29 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सोमवीर (जेसी-489762एन), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-489753एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-489785पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार औम प्रकाश (जेसी-489786एक्स), 16 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कालू राम गाल्वा (जेसी-489777डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-489821पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-489826एन), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-489827डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह पंवार (जेसी-489858डब्ल्यू), 18 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489842एल), 17 नवम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुख लाल (जेसी-489846एफ), 23 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नवल किशोर यादव (जेसी-489861डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-489886एच), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-489887एल), 15 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-489897पी), 05 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-489906एल), 20 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-489907एन), 25 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार डाल चन्द (जेसी-489921ए), 26 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-489910एन), 15 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार औम प्रकाश सिंह (जेसी-489794डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-489980एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार नोका राम (जेसी-489984एच), 13 अक्टूबर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-489987डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह मिश्रवाल (जेसी-490000एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार मूला राम (जेसी-490011वाई), 10 जुलाई 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-490014एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-489830डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

महार रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह (जेसी-569724एल), 28 जुलाई 2007@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 जुलाई 2007)

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-569614डब्ल्यू), 22 नवम्बर 2007#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2007)

नायब सूबेदार संता बहादुर प्रधान (जेसी-569143एन), 17 अगस्त 2007\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 अगस्त 2007)

नायब सूबेदार देवमोहन जर्नादन अम्भोरे (जेसी-569363एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार त्रिपुरारी सिंह (जेसी-569472के), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार काम्बले शिव लिंग मानिक (जेसी-569482एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार भालेराव प्रकाश ओंकार (जेसी-569527एच), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार रारे सिंह मनहार (जेसी-569536के), 15 अक्टूबर 2007%

नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह पचरे (जेसी-569630एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार रतन पाल सिंह (जेसी-569681एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-569683एम), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-569704एक्स), 05 सितम्बर 2007%

नायब सूबेदार कमल कुमार यादव (जेसी-569725एन), 01 सितम्बर 2007

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-569583एफ), 06 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार हिलाले संजय रामा (जेसी-569473एम), 03 अक्टूबर 2007^

नायब सूबेदार विलास मोहन काम्बले (जेसी-569477एच),
06 अक्टूबर 2007^

नायब सूबेदार भीमराव पांडुरंग वाघमारे (जेसी-569480एच),
12 अक्टूबर 2007^

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-569505के), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार महाकांत झा (जेसी-569578डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार प्रभु नाथ यादवा (जेसी-569581डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार संत बीर सिंह (जेसी-569582वाई), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार अलेक्सियस आइन्ड (जेसी-569585एम), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द साहु (जेसी-569601वाई), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार जर्नादन सिंह माजिला (जेसी-569590एक्स),
01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार अडागले दीपक दामोदर (जेसी-569610ए),
01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-569644एन), 02 अक्टूबर 2007^

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-569645डब्ल्यू), 04 अक्टूबर
2007^

नायब सूबेदार गणेश राम (जेसी-569650एफ), 09 अक्टूबर 2007^
^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2007)

नायब सूबेदार गौतम कुमार परशराम सोनोने (जेसी-569376पी),
20 अक्टूबर 2007&

नायब सूबेदार सहदेव बाबुराव काटे (जेसी-569382एच), 02 अक्टूबर
2007

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 अक्टूबर 2007)

नायब सूबेदार परताप सिंह (जेसी-569295पी), 15 नवम्बर 2007*

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-569301एक्स), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-569411एम), 01 नवम्बर 2007

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

नायब सूबेदार कमलेश राम तिवारी (जेसी-569530एच), 10 फरवरी
2007@

नायब सूबेदार थोकले मुरलीधर गोविन्द (जेसी-569220एक्स),
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार कुमार सपकाल दयानन्द चन्दू (जेसी-569391के),
08 जनवरी 2007@

नायब सूबेदार जोदन्द त्रयांबक तुलसीराम (जेसी-569422वाई),
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार इंगले बाबुराव पुंडलिक (जेसी-569423एफ),
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-569491पी), 28 जनवरी 2007@

नायब सूबेदार जग राम (जेसी-569551वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-569552एफ), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-569562एल), 01 जनवरी 2007

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2007)

नायब सूबेदार सुमंता कुमार नायक (जेसी-569454एफ), 05 अप्रैल
2007#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जनवरी 2007)

नायब सूबेदार बधा चरन बास्की (जेसी-569532एन), 07 अप्रैल
2007\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 जनवरी 2007)

नायब सूबेदार इसबीर सिंह (जेसी-569344एम), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार यदु नाथ सिंह (जेसी-569221ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार राम गोपाल दान (जेसी-569449डब्ल्यू), 01 फरवरी
2007

नायब सूबेदार चौहान अरविन्द कुमार रामू सिंह (जेसी-569487एम),
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार गुनानिधि नायक (जेसी-569510पी), 27 मार्च 2007%

नायब सूबेदार चेत राम (जेसी-569718एक्स), 01 अक्टूबर 2007%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2007)

नायब सूबेदार पुरुसोत्तम सतपथी (जेसी-569453वाई), 05 फरवरी
2007

नायब सूबेदार सिवदासन के एस (जेसी-569309के), 10 अप्रैल
2007^

नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-569331पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार लखपत सिंह (जेसी-569332एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-569347ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार सोनोने अनिल रघुनाथ राव (जेसी-569518एफ),
25 अप्रैल 2007^

नायब सूबेदार क्रिशन (जेसी-569567के), 01 अप्रैल 2007^

^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2007)

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-569294एम), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार लख्मी चन्द (जेसी-569435डब्ल्यू), 23 मई 2007&
 नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह (जेसी-569476ए), 16 मई 2007&
 नायब सूबेदार गोकुल चन्द्र बारिक (जेसी-569486के), 08 अप्रैल 2007&
 नायब सूबेदार खंडारे संजय गोपालराव (जेसी-569508एक्स), 05 जुलाई 2007&
 नायब सूबेदार एस के अमानुल्ला (जेसी-569525एक्स), 14 मई 2007&
 नायब सूबेदार अलहाट पोपट विट्ठल (जेसी-569555पी), 13 जुलाई 2007&
 नायब सूबेदार रनदीवे शंकर सम्भाजी (जेसी-569558एच), 19 जुलाई 2007&
 &(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2007)
 नायब सूबेदार लोंधे विजय भीवराव (जेसी-569322एन), 05 मई 2007*
 *(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2007)
 नायब सूबेदार बनेस्वर राय (जेसी-569451एन), 07 मई 2007
 नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-569668एक्स), 12 जून 2007<
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-569600डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-569605पी), 12 जून 2007<
 नायब सूबेदार चन्द्रजीत यादव (जेसी-569612एल), 06 जुलाई 2007<
 नायब सूबेदार जयराज भट्ट (जेसी-569595डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार गुगन राम (जेसी-569632वाई), 19 जून 2007<
 नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जेसी-569633एफ), 14 जून 2007<
 नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-569634के), 21 जून 2007<
 नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-569641ए), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-569642एच), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार धरमबीर (जेसी-569643एल), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार खेम सिंह (जेसी-569685एक्स), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-569686ए), 07 जुलाई 2007<
 नायब सूबेदार रामा रतन (जेसी-569697एम), 03 अगस्त 2007<
 नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-569710एल), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-569711एन), 06 जुलाई 2007<
 नायब सूबेदार गुलज़ार सिंह (जेसी-569712डब्ल्यू), 06 जुलाई 2007<
 <(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2007)

नायब सूबेदार सुरेश संतराम गोदरे (जेसी-569064वाई), 19 जुलाई 2007<
 <(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 11 जून 2007)
 नायब सूबेदार प्रदीप कुमार सिंह (जेसी-569534वाई), 16 जुलाई 2007@@
 @@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 जून 2007)
 नायब सूबेदार शिने पी मैथ्यू (जेसी-569452डब्ल्यू), 15 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार लोक राज (जेसी-569671एक्स), 30 अक्टूबर 2007##
 ##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 जून 2007)
 नायब सूबेदार हरि दत्त भट्ट (जेसी-569502डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार कमलेश चन्द्र (जेसी-569545एल), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार काम्बले श्रीकान्त यशवंत (जेसी-569560ए), 24 जनवरी 2008\$\$
 नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-569533डब्ल्यू), 03 जुलाई 2007\$\$
 नायब सूबेदार काम्बले बाबुराव नाना (जेसी-569564डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2007\$\$
 नायब सूबेदार क्रिश्ना प्रसाद सिंह (जेसी-569539एक्स), 02 जुलाई 2007\$\$
 नायब सूबेदार थोके सोपान रामभाऊ (जेसी-569568एम), 20 नवम्बर 2007\$\$
 नायब सूबेदार विश राम सिंह (जेसी-569616एफ), 03 जुलाई 2007\$\$
 नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-569701के), 02 जुलाई 2007\$\$
 \$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2007)
 पंजाब रेजिमेंट
 नायब सूबेदार के रैंक में
 हवलदार दर्शन सिंह (सं. 2479682पी अब जेसी-430573एम), 01 मई 2009
 हवलदार रूमाल सिंह (सं. 2478935एम अब जेसी-430574पी), 21 जुलाई 2009
 (नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2009 से दी जाती है)
 हवलदार मेहताब सिंह (सं. 2479233ए अब जेसी-430575एक्स), 25 जुलाई 2009
 (नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार पवन कुमार (सं. 2480064डब्ल्यू अब जेसी-430576ए),
25 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार मोहिन्दर पोल (सं. 2480070के अब जेसी-430577एच),
22 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार कैवलजीत सिंह (सं. 2479803एल अब जेसी-430578एल),
01 जुलाई 2009

हवलदार रेशम पाल सिंह (सं. 2480213वाई अब जेसी-430579एन),
09 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार मुख्तियार सिंह (सं. 2480479एल अब जेसी-430580एच),
26 जुलाई 2009

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुराद खान (सं. 2682808वाई अब जेसी-450746ए),
01 जनवरी 2009

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 2681120ए अब जेसी-450747एच),
07 अप्रैल 2009

हवलदार आजाद सिंह खुन्ना (सं. 2681121एल अब जेसी-
450748एन), 07 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक सूरज भान मिश्रा (सं. 2683084वाई अब जेसी-
450749एन), 01 जुलाई 2009

हवलदार/लिपिक सत्येन्द्र कुमार सिंह (सं. 2683367ए अब जेसी-
450750एच), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्म राज सिंह गौर (सं. 2681271वाई अब जेसी-
450735एन), 23 फरवरी 2009

हवलदार धर्म चन्द (सं. 2681694एम अब जेसी-450736डब्ल्यू),
07 अप्रैल 2009

हवलदार फजार अली (सं. 2679061ए अब जेसी-450737वाई),
01 मई 2009

हवलदार नरेश पाल सिंह (सं. 2681599ए अब जेसी-450738एफ),
01 मई 2009

हवलदार अदरीस अली (सं. 2683428एम अब जेसी-450739के),
01 मई 2009

हवलदार सीता राम (सं. 2681680एम अब जेसी-450740वाई),
01 जून 2009

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 2680506एन अब जेसी-450741एफ),
01 जून 2009

हवलदार लाखा सिंह (सं. 2681021एक्स अब जेसी-450742के),
01 जून 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) शिव बक्श राम (सं. 15359477एक्स अब
जेसी-450743एम), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) मुशतफा खान तवनगर खान (सं. 15355778के
अब जेसी-450744पी), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) रवि आर (सं. 2682583एफ अब जेसी-
450745एक्स), 01 जून 2009

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुमार यादव विलास देवजी (सं. 4558681ए अब जेसी-
570292एन), 31 दिसम्बर 2008@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 4069678एक्स अब
जेसी-570293डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2008#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 नवम्बर 2008)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4559524ए अब जेसी-570294वाई),
10 जनवरी 2009\$

हवलदार लेख राज (सं. 4559650एम अब जेसी-570295एफ),
10 जनवरी 2009\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं. 4559066पी अब जेसी-570296के),
10 जनवरी 2008%

हवलदार स्वापन कुमार गैन (सं. 4558485ए अब जेसी-570297एम),
10 जनवरी 2008%

हवलदार बाबुलाल चौधरी (सं. 4560309एफ अब
जेसी-570298पी), 10 जनवरी 2008%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार अहिरे मधुकर भागचन्द (सं. 4561044पी अब जेसी-
570299एक्स), 15 अगस्त 2008^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2008)

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 4565130एक्स अब जेसी-570300एफ),
26 जनवरी 2009&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 अगस्त 2008)

हवलदार विकाश यशवंत काम्बले (सं. 4561074एम अब जेसी-570301के), 01 सितम्बर 2008

हवलदार हरवीर सिंह (सं. 4559322वाई अब जेसी-570302एम), 28 अक्टूबर 2008*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार शेन्डगे दिलीप रामचन्द्र (सं. 4561329पी अब जेसी-570303पी), 08 नवम्बर 2008**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 अक्टूबर 2008)

हवलदार वानखड़े विलास सोपान (सं. 4562134एच अब जेसी-570304एक्स), 14 नवम्बर 2008@@

हवलदार मेहर सिंह (सं. 4560083एफ अब जेसी-570305ए), 01 नवम्बर 2008

हवलदार अनजान कुमार बिस्वाल (सं. 4565333एफ अब जेसी-570306एच), 26 जनवरी 2009@@

हवलदार नीरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4565387एच अब जेसी-570307एल), 26 जनवरी 2009@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 4559416डब्ल्यू अब जेसी-570308एन), 16 दिसम्बर 2008##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार श्री गिरेन्द्र सिंह भदौरिया (सं. 4559945एच अब जेसी-570309डब्ल्यू), 02 जनवरी 2009\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4558933एफ अब जेसी-570310एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार सत्यपाल (सं. 4557167के अब जेसी-570311एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार मितान सिंह (सं. 4183553ए अब जेसी-570312डब्ल्यू), 07 फरवरी 2009%%

%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार सत्यवीर यादव (सं. 4559863ए अब जेसी-570313वाई), 14 जनवरी 2009^^

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार सत्यवीर (सं. 4559477एन अब जेसी-570314एफ), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार राकेश कुमार (सं. 4559598पी अब जेसी-570315के), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 4560138ए अब जेसी-570316एम), 14 जनवरी 2009&&

हवलदार राम सिंह बोरा (सं. 4560156एच अब जेसी-570317पी), 14 जनवरी 2009&&

हवलदार राकेश कुमार (सं. 4560163वाई अब जेसी-570318एक्स), 14 जनवरी 2009&&

&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार पटेलिया पशुभाई रामा भाई (सं. 7431075एन अब जेसी-570319ए), 19 जनवरी 2009>>

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4560291डब्ल्यू अब जेसी-570320पी), 20 जनवरी 2009>>

हवलदार टिकेस्वर साहू (सं. 4560804ए अब जेसी-570321एक्स), 31 जनवरी 2009>>

>> (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार हुसेनी मारुति धोर (सं. 4557903एक्स अब जेसी-570323एच), 17 नवम्बर 2008<<

<< (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 सितम्बर 2008)

हवलदार भोरे नेताजी राजाराम (सं. 4559328ए अब जेसी-570324एच), 02 दिसम्बर 2008@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार सुरेश कुमार बारिक (सं. 4560274डब्ल्यू अब जेसी-570325एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार प्रसन्ना कुमार परीडा (सं. 4560767एक्स अब जेसी-570326डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बिनोद कुमार साहू (सं. 4560770एक्स अब जेसी-570327वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार प्रकाश चन्द्र पात्रा (सं. 4560771ए अब जेसी-570328एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार बाना बिहारी स्वर्ण (सं. 4560772एच अब जेसी-570329के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार उदय कुमार नायाक (सं. 4560773एल अब जेसी-570330वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सदासिबा भोई (सं. 4556778एम अब जेसी-570331एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार रमेश भीमराव इंगले (सं. 4559592एन अब जेसी-570332के), 17 जनवरी 2009###

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार गुरबक्स सिंह (सं. 8031314ए अब जेसी-570333एम),
01 जनवरी 2009\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 26 दिसम्बर 2008)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4559795एक्स अब जेसी-570334पी),
16 जनवरी 2009%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार काम्बले रघुनाथ रामचन्द्र (सं. 4559171एल अब
जेसी-570335एक्स), 04 फरवरी 2009^^

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 नवम्बर 2008)

हवलदार अशीम कुमार मंडल (सं. 4560019के अब
जेसी-570336ए), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार पर्वत मंडल (सं. 4560859के अब जेसी-570337एच),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4559107एन अब जेसी-570178डब्ल्यू),
07 मई 2008@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008)

हवलदार रतन सिंह (सं. 4559073एल अब जेसी-570179वाई),
28 जून 2008#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 17 मई 2008)

हवलदार धर्मैन्द्र कुमार (सं. 4560065वाई अब जेसी-570180एन),
03 जून 2008\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008)

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 4558456एल अब जेसी-570181डब्ल्यू),
01 जून 2008

हवलदार इंदर पाल सिंह (सं. 4560293एफ अब जेसी-570182वाई),
07 जुलाई 2008%

हवलदार सुबे सिंह (सं. 4561775एच अब जेसी-570183एफ),
07 जुलाई 2008%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2008)

हवलदार आवले कृष्णा गणपति (सं. 4559793एम अब जेसी-
570184के), 16 मार्च 2008^

^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 दिसम्बर 2008)

हवलदार रोशन लाल (सं. 4559675वाई अब जेसी-570185एम),
01 जनवरी 2008

हवलदार काम्बले तुकाराम प्रभाकर (सं. 4560877एम अब जेसी-
570186पी), 10 मई 2008&

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2008)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 4560415ए अब जेसी-570187एक्स),
05 जून 2008*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008)

हवलदार अलोके कुमार घोष (सं. 4559055एच अब
जेसी-570188ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार भिमराव विठिल ज़िमुर् (सं. 4559580वाई अब
जेसी-570189एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार (लिपिक) (एसडी) लक्ष्मीधर बेहरा (सं. 4558164एच
अब जेसी-570190एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार टोकसे सुधाकर शंकर (सं. 4560848एक्स अब
जेसी-570191ए), 16 अप्रैल 2008+

+(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 दिसम्बर 2007)

हवलदार उषेंद्र सिंह (सं. 4559314ए अब जेसी-570192एच),
01 जुलाई 2008

हवलदार मोहिते मंगेश बाबु (सं. 4564926एफ अब जेसी-
570196वाई), 12 जून 2008@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008)

हवलदार काम्बले दयानंद चंदु (सं. 4560955वाई अब
जेसी-570197एफ), 25 जुलाई 2008##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2008)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4559673एन अब जेसी-570198के),
01 जुलाई 2008

हवलदार माया राम (सं. 4560369डब्ल्यू अब जेसी-570199एम),
14 अगस्त 2008\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 11 जुलाई 2008)

हवलदार/लिपिक (एसडी) चक्राधर दाश (सं. 4558123वाई अब
जेसी-570200डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) करूनाकरण नायर वि जि (सं. 4558208पी
अब जेसी-570201वाई), 01 सितम्बर 2008

हवलदार प्रवाकर लेंका (सं. 4557460एफ अब जेसी-570202एफ),
02 जून 2008%%

%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2008)

हवलदार पूरन सिंह रानावत (सं. 4559044डब्ल्यू अब
जेसी-570203के), 02 मई 2008^^

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008)

हवलदार/लिपिक (एसडी) राजेन्द्रा सिंह (सं. 4558178एच अब
जेसी- 570204एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) मुन्नी लाल यादव (सं. 4558179एल अब जेसी-570205पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार निशान राव राजू दत्तजी (सं. 4559235एल अब जेसी-570206एक्स), 03 जून 2008

हवलदार नरिपेंद्रा दास (सं. 4560025एक्स अब जेसी-570207ए), 20 अगस्त 2008&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 जुलाई 2008)

हवलदार राम चंद्रा पाण्ड्या (सं. 4556257वाई अब जेसी-570208एच), 01 सितम्बर 2008

हवलदार राज कुमार राम (सं. 8032207एल अब जेसी-570209एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार कटारा वकता सिंह भाई वकता भाई (सं. 4559442एक्स अब जेसी-570210ए), 01 सितम्बर 2008

हवलदार मदन लाल (सं. 4560455एफ अब जेसी-570211एच), 01 सितम्बर 2008

हवलदार सुंदर सिंह बिष्ट (सं. 4560622एम अब जेसी-570212एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार लिपिक (एसडी) जयपाल नाईक (सं. 4558159एक्स अब जेसी-570213एन), 01 अगस्त 2008

हवलदार जय प्रकाश सिंह (सं. 4561513एम अब जेसी-570214डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार लिपिक (एसडी) भगवान सिंह (सं. 4558212एक्स अब जेसी-570215वाई), 10 अक्टूबर 2008**

हवलदार लिपिक (एसडी) बोधु राम (सं. 2983759एम अब जेसी-570216एफ), 10 अक्टूबर 2008**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार श्री जय कुमार (सं. 4561502ए अब जेसी-570217के), 15 जुलाई 2008@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008)

हवलदार मोहिते संदेश सिताराम (सं. 4558502पी अब जेसी-570218एम), 06 अक्टूबर 2008

हवलदार गायकवाड राजाराम माधव राव (सं. 4558525डब्ल्यू अब जेसी-570219पी), 06 अक्टूबर 2008\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 अगस्त 2008)

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं. 4560386डब्ल्यू अब जेसी-570220के), 01 सितम्बर 2008

हवलदार भाम्बले प्रल्हाद नारायण (सं. 4558596एक्स अब जेसी-570221एम), 06 अक्टूबर 2008%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 19 सितम्बर 2008)

हवलदार लिपिक (एसडी) आर सुब्रामनि (सं. 4558270एफ अब जेसी-570222पी), 10 अक्टूबर 2008^^

हवलदार लिपिक (एसडी) रमा कांत (सं. 4558274एक्स अब जेसी-570223एक्स), 15 अक्टूबर 2008^^

हवलदार लिपिक (एसडी) चंदन सिंह (सं. 4556902एच अब जेसी-570224ए), 15 अक्टूबर 2008^^

हवलदार लिपिक (एसडी) सुभाष चंद (सं. 4557529ए अब जेसी-570225एच), 06 अक्टूबर 2008^^

हवलदार लिपिक (एसडी) श्री राम बाबुसराव वर्धि (सं. 4557945एल अब जेसी-570226एल), 11 अक्टूबर 2008^^

हवलदार चौगुले चंद्राकांत याल्लप्पा (सं. 4558669वाई अब जेसी-570227एन), 06 अक्टूबर 2008^^

हवलदार भंडारे सुर्यकांत गंगाराम (सं. 4558598एच अब जेसी-570228डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2008^^

हवलदार पवार अनिल तोलु (सं. 4558705वाई अब जेसी-570229वाई), 06 अक्टूबर 2008^^

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार सुभाष चंद (सं. 4558878डब्ल्यू अब जेसी-570230एन), 10 मार्च 2008

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 4559398वाई अब जेसी-570231डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2008@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008)

हवलदार चिप्लुंकर सुदेश केशव (सं. 4559329एच अब जेसी-570232वाई), 13 सितम्बर 2008#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 अगस्त 2008)

हवलदार खंडागले बापु भिका (सं. 4559515वाई अब जेसी-570233एफ), 15 सितम्बर 2008\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 अगस्त 2008)

हवलदार नेपाल सिंह जोधा (सं. 4561537डब्ल्यू अब जेसी-570234के), 08 सितम्बर 2008

हवलदार देवेंद्रा सिंह (सं. 4561493के अब जेसी-570235एम), 12 सितम्बर 2008

हवलदार शमशेर (सं. 4561566एल अब जेसी-570236पी), 08 अक्टूबर 2008%

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 4561592एम अब जेसी-570237एक्स), 08 अक्टूबर 2008%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार प्रावात रंजन जेना (सं. 4565411एन अब जेसी-570238ए),
01 नवम्बर 2008

हवलदार कुलतार सिंह (सं. 4562258एक्स अब जेसी-570239एच),
01 नवम्बर 2008

हवलदार भालेराव अंकुश लाहु (सं. 4559717ए अब जेसी-570240एक्स),
06 नवम्बर 2008*

हवलदार तेज सिंह (सं. 4562238के अब जेसी-570241ए), 23 नवम्बर
2008*

हवलदार रंधिर सिंह (सं. 4559078के अब जेसी-570242एच), 30 अगस्त
2008*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2008)

हवलदार सुशील कुमार (सं. 4559899वाई अब जेसी-570243एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार दिलिप कुमार प्रधान (सं. 4559506एक्स अब
जेसी-570244एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार शेर सिंह (सं. 4559893एक्स अब जेसी-570245डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार कलुवा (सं. 4559932एल अब जेसी-570246वाई), 01 अक्टूबर
2008

हवलदार गोरंग नायक (सं. 4559271एच अब जेसी-570247एफ),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार समशेर सिंह (सं. 4560444पी अब जेसी-570248के),
05 अक्टूबर 2008@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2008)

हवलदार मोरे बालु भोगल (सं. 4558346डब्ल्यू अब जेसी-570249एम),
08 नवम्बर 2008##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 अक्टूबर 2008)

हवलदार लिपिक (एसडी) पी प्रेम कुमार (सं. 4558352के अब
जेसी-570250एफ), 12 नवम्बर 2008\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार लिपिक (एसडी) कमल सिंह आफ्रिया (सं. 4558406ए
अब जेसी-570251के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार हरिश कुमार (सं. 4559373एम अब जेसी-570252एम),
01 नवम्बर 2008

हवलदार तेजेन्द्र सिंह (सं. 4561492एफ अब जेसी-570253पी),
02 दिसम्बर 2008%%

%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 नवम्बर 2008)

हवलदार अजित सिंह (सं. 4561922ए अब जेसी-570254एक्स),
02 दिसम्बर 2008^^

हवलदार बासुदेब दाश (सं. 4270656पी अब जेसी-570255ए),
02 दिसम्बर 2008^^

^^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार सिद्नायक गणपति लगामा (सं. 4558771एफ अब
जेसी-570256एच), 08 अक्टूबर 2008&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 26 सितम्बर 2008)

हवलदार झनके मुर्लिधर बर्सु (सं. 4559170एच अब जेसी-570257एल),
07 अक्टूबर 2008**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार लक्ष्मन सिंह (सं. 4559072एच अब जेसी-570258एन),
17 मई 2008@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 जनवरी 2008)

हवलदार सुरेश सिंह यादव (सं. 4560118एम अब जेसी-570259डब्ल्यू),
13 नवम्बर 2008###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार त्रिलोक सिंह बोरा (सं. 4563567एम अब जेसी-570260एल),
22 नवम्बर 2008\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुखमंदर सिंह (सं. 3388833एल अब जेसी-500170एम),
16 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

हवलदार हर भजन सिंह (सं. 3389737एच अब जेसी-500171पी),
22 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 अगस्त 2009)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 3390287एच अब जेसी-500172एक्स),
11 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009)

हवलदार परगट सिंह (सं. 3388653एच अब जेसी-500173ए),
20 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2009)

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 3386671एम अब जेसी-500174एच),
13 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 3387255पी अब जेसी-500175एल),
27 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2009)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 3386893एफ अब जेसी-500176एन),
18 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2009)

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 3388576वाई अब जेसी-500177डब्ल्यू),
26 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 अगस्त 2009)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 13618920एक्स अब जेसी-500178वाई),
28 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2009)

हवलदार संगीतज्ञ काशमीर सिंह (सं. 3385707एन अब जेसी-500179एफ),
11 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2009)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 3390414एम अब जेसी-500180डब्ल्यू),
08 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3388835डब्ल्यू अब जेसी-500181वाई),
12 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2009)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3389771एच अब जेसी-500182एफ),
04 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2009)

हवलदार शिव सिंह (सं. 3388996वाई अब जेसी-500183के),
01 नवम्बर 2009

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3388681पी अब जेसी-500184एम),
01 नवम्बर 2009

हवलदार बुट्ट सिंह (सं. 3386040के अब जेसी-500143एच), 06 जुलाई
2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008)

हवलदार निशान सिंह (सं. 3389965एल अब जेसी-500144एल),
24 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 मार्च 2009)

हवलदार कवलजीत सिंह (सं. 3389281पी अब जेसी-500145एन),
10 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3389861के अब जेसी-500146डब्ल्यू),
17 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 मई 2009)

हवलदार गुग्गल सिंह (सं. 3390004एक्स अब जेसी-500147वाई),
15 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 3389560ए अब जेसी-500148एफ),
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक चंदन सिंह (सं. 3391315डब्ल्यू अब जेसी-500149के),
19 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 3387635एन अब जेसी-500150वाई),
28 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3387735वाई अब जेसी-500151एफ),
28 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 3385307एफ अब जेसी-500152के),
13 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 मार्च 2009)

हवलदार गुरभीत सिंह (सं. 3390650एन अब जेसी-500153एम),
27 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2009)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3390125एक्स अब जेसी-500154पी),
20 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2009)

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 3389728एफ अब जेसी-500155एक्स),
12 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009)

हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 3389061एल अब जेसी-500156ए),
24 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 मई 2009)

हवलदार मेजर सिंह (सं. 3387691एम अब जेसी-500157एच),
17 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार दलविंदर सिंह, एसएम (सं. 3389541पी अब जेसी-500158एल),
12 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 3390065एन अब जेसी-500159एन), 18 अगस्त
2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार सरवन सिंह (सं. 3389062एन अब जेसी-500160एच),
06 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) परवानी रमेश कुमार लाल चंद (सं. 15359281के
अब जेसी-500161एल), 22 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008)

हवलदार (लिपिक) चतरा राम भाकर (सं. 3391220डब्ल्यू अब
जेसी-500162एन), 25 जून 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009)

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 3180589एक्स अब जेसी-490443एन),
18 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार हरी सिंह (सं. 3180502एल अब जेसी-490444डब्ल्यू),
19 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राम नारायण जाट (सं. 3180971एन अब
जेसी-490445वाई), 19 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बलराज सिंह (सं. 3181259एल अब जेसी-490446एफ),
05 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण (सं. 3191616डब्ल्यू अब जेसी-490447के),
01 अगस्त 2009

हवलदार शिवजी (सं. 3183766एक्स अब जेसी-490448एम),
01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अशीम राय (सं. 3180040के अब
जेसी-490449पी), 10 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) पुरुषोत्तम पनाकडा (सं. 3180044ए अब
जेसी-490450के), 06 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार खेता राम जाट (सं. 3180729वाई अब जेसी-490435पी),
01 जून 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार करन सिंह (सं. 3180761एन अब जेसी-490436एक्स),
01 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विश्वम्भर सिंह (सं. 3181016ए अब जेसी-490437ए),
01 जुलाई 2009

हवलदार सुमेर सिंह बोला (सं. 3185528के अब जेसी-490438एच),
01 अगस्त 2009

हवलदार (लिपिक) प्रशोभा कुमार के सी (सं. 3179816ए अब
जेसी-490439एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार (लिपिक) गोबिन्दा दास (सं. 3179877एक्स अब जेसी-
490440ए), 14 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) शुक्देव प्रसाद गुप्ता (सं. 3179880एक्स अब
जेसी-490441एच), 21 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) आर ज्ञान प्रकाशम (सं. 3179928ए अब जेसी-
490442एल), 21 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हर सिंह विष्ट (सं. 4070086ए अब जेसी-530723एम),
14 मई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार रणबीर सिंह (सं. 4066246एक्स अब जेसी-530724पी),
07 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार उदय सिंह (सं. 8032263के अब जेसी-530725एक्स),
14 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह रावत (सं. 4069124वाई अब जेसी-
530726ए), 01 जुलाई 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4070227के अब जेसी-530729एन),
01 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार रमेश शर्मा, सेना मैडल (सं. 4068984ए अब जेसी-
530730एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार टेक सिंह (सं. 4068972एल अब जेसी-530731एल),
03 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह नेगी (सं. 4070797ए अब जेसी-530732एन),
01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बलवन्त सिंह (सं. 15354413एच अब
जेसी-530727एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (लिपिक) जगमोहन सिंह रावत (सं. 15354897एन अब
जेसी-530728एल), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4070043एल अब जेसी-530710पी),
01 जून 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार महेन्द्र सिंह नेगी (सं. 4067433एच अब जेसी-530711एक्स),
28 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4067538एम अब जेसी-530712ए),
18 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह कण्डारी (सं. 4071281के अब जेसी-
530714एल), 01 अगस्त 2009

हवलदार मोहन लाल (सं. 4069347डब्ल्यू अब जेसी-530715एन),
03 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 4069732ए अब जेसी-530716डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2009

हवलदार प्रताप सिंह रावत (सं. 4069456एच अब जेसी-
530717वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069550एम अब जेसी-530718एफ),
01 सितम्बर 2009

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 4069264एल अब जेसी-530719के),
11 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार संदीप कुमार (सं. 4069494वाई अब जेसी-530720वाई),
11 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार केसर सिंह (सं. 4069268एफ अब जेसी-530721एफ),
01 सितम्बर 2009

हवलदार शिवा नन्द (सं. 4069528एफ अब जेसी-530722के),
01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राम निवास यादव (सं. 4069502एम अब जेसी-530713एच), 18 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पवेन्द्र सिंह (सं. 4265811एफ अब जेसी-530698वाई),
10 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार गिरिश चन्द्र (सं. 4069524एल अब जेसी-530699एफ),
20 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार दीपक कुमार (सं. 4069259ए अब जेसी-530700एल),
16 मई 2009

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4069925ए अब जेसी-530701एन),
20 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 4069894एल अब जेसी-530702डब्ल्यू),
01 जून 2009

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4069702के अब जेसी-530704एफ),
11 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार ताजबर सिंह (सं. 4069449एम अब जेसी-530707पी),
01 अगस्त 2009

हवलदार महिपाल सिंह बिष्ट (सं. 4069500एफ अब जेसी-530708एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार बिक्रम सिंह नेगी (सं. 7430592वाई अब जेसी-530709ए),
01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) दलेब सिंह (सं. 4069472ए अब जेसी-530703वाई), 01 जुलाई 2009

हवलदार (लिपिक) चन्द्र मोहन (सं. 4069487एच अब जेसी-530705के), 17 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) झण्डे सत्यवान अगंद (सं. 4069497एम अब जेसी-530706एम), 15 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069714एक्स अब जेसी-530686के),
11 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

हवलदार भीमराज सिंह (सं. 4069730पी अब जेसी-530688पी),
18 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह भण्डारी (सं. 4069321एफ अब जेसी-530689एक्स), 20 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह गुंसाई (सं. 4068732एन अब जेसी-530690एम),
13 जून 2009

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4068780एन अब जेसी-530691पी),
13 जून 2009

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 4069309ए अब जेसी-530693ए),
01 जुलाई 2009

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 4070054एक्स अब जेसी-530694एच),
01 जुलाई 2009

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4067882एक्स अब जेसी-530695एल),
25 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार होशियार सिंह (सं. 4069027एफ अब जेसी-530696एन),
01 जुलाई 2009

हवलदार हरिनाम सिंह गुंसाई (सं. 4069454एक्स अब जेसी-530697डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) हरीश चन्द्र सिंह (सं. 4068812एल अब जेसी-530687एम), 13 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) अमरपाल सिंह नेगी (सं. 4069447एफ अब जेसी-530692एक्स), 01 जुलाई 2009

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वेद राम ठाकुर (सं. 3988623एच अब जेसी-521053पी), 01 अक्टूबर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से)

हवलदार किक्कर सिंह (सं. 3987155एफ अब जेसी-521054एक्स), 28 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3988464डब्ल्यू अब जेसी 521055ए), 04 अक्टूबर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से)

हवलदार मलकोत सिंह (सं. 3987402के अब जेसी-521056एच), 28 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2009 से)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3987547पी अब जेसी-521057एल), 28 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से)

हवलदार सुरेश चन्द चन्देल (सं. 3988884डब्ल्यू अब जेसी-521058एन), 16 अक्टूबर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2009 से)

हवलदार तरशेम चन्द (सं. 3987490एल अब जेसी-521059डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2009 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विनोद कुमार (सं. 3989303ए अब जेसी-521060एल), 05 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलभूषण सिंह (सं. 3989345एम अब जेसी-521033एफ), 22 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2009 से)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 3987117एल अब जेसी-521034के), 27 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2009 से)

हवलदार मुख्तियार सिंह (सं. 3987239पी अब जेसी-521035एम), 12 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2009 से)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 3989403एल अब जेसी-521036पी), 06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2009 से)

हवलदार ज्ञान सिंह पठानिया (सं. 3987703एन अब जेसी-521037एक्स), 06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जून 2009 से)

हवलदार बचन लाल शर्मा (सं. 3987108के अब जेसी-521038ए), 22 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गायकवाड़ संजय काशीनाथ (सं. 15362447एल अब जेसी-521039एच), 01 जुलाई 2009

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जीडी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार राजेश कुमार कुंतिया (सं. 4270776एन अब जेसी-560218वाई), 16 सितम्बर 2009/01 जून 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) उन्निकृष्णन के एन (सं. 4267786एम अब जेसी-560219एफ), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (लिपिक) पवार अरून भीम रॉव (सं. 4268145एम अब जेसी-560220डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार चितरंजन ओझा (सं. 4266380एम अब जेसी-560221वाई), 01 नवम्बर 2009/01 फरवरी 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार हलधर महन्ता (सं. 4267883डब्ल्यू अब जेसी-560222एफ), 12 अक्टूबर 2009/01 फरवरी 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार निलकंठ साबर (सं. 4268937एम अब जेसी-560223के), 01 अक्टूबर 2009/19 फरवरी 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार आदित्य कुमार निराला (सं. 4265711डब्ल्यू अब जेसी-560224एम), 01 अक्टूबर 2009/01 अप्रैल 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार रंकानिधी बेहरा (सं. 4269431ए अब जेसी-560225पी), 01 अक्टूबर 2009/01 जून 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार जतरू भगत (सं. 4266811एन अब जेसी-560226एक्स), 01 अक्टूबर 2009/01 जुलाई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार धनन्जय अधिकारी (सं. 4268867वाई अब जेसी-560227ए), 22 सितम्बर 2009/01 जुलाई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 14 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार घनश्याम नायक (सं. 4265802ए अब जेसी-560228एच), 25 सितम्बर 2009/14 अगस्त 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 14 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल कुमार मोहन्ती (सं. 4268882एन अब जेसी-560229एल), 22 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार अंजलुस बखला (सं. 4266891डब्ल्यू अब जेसी-560230ए), 22 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) स्टीफन सी (सं. 4267757एक्स अब जेसी-560231एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (लिपिक) कमल सिंह झाझरिया (सं. 4268864एल अब जेसी-560232एल), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार पिथा चरण सोरेन (सं. 4270173एक्स अब जेसी-560202एन), 20 अगस्त 2009/17 जनवरी 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 17 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार राम कुमार पाण्डेय (सं. 4265734एक्स अब जेसी-560203डब्ल्यू), 17 अगस्त 2009/01 मई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार काण्डे पाहन (सं. 4266423डब्ल्यू अब जेसी-560204वाई), 06 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार चिमोटे सुखाराम कालू (सं. 4268172डब्ल्यू अब जेसी-560205एफ), 03 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार बैद नाथ प्रसाद (सं. 4266276वाई अब जेसी-560197एन), 14 जुलाई 2009/01 अप्रैल 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार जगा नाथ कार्वा (सं. 4265982एन अब जेसी-560198डब्ल्यू), 11 जुलाई 2009/01 मई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार बर्मेश्वर राय (सं. 4266038एम अब जेसी-560199वाई), 30 जुलाई 2009/18 मई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 18 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार निरंजन कुमार रॉय (सं. 4266011पी अब जेसी-560200एच), 22 जुलाई 2009/27 मई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 4266068के अब जेसी-560201एल),
22 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

दि राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार (लिपिक के) रूप में

हवलदार (लिपिक) केसरकर बालू गणपती (सं. 2986207के अब
जेसी-480442एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार (लिपिक) जार्ज पी जोसेफ (सं. 2986208एम अब
जेसी-480450डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार नरेश चन्द (सं. 2989886एक्स अब जेसी-480435एफ),
14 अगस्त 2009/01 अप्रैल 2009

हवलदार योगेन्द्रा सिंह (सं. 2986986एफ अब जेसी-480436के),
06 अगस्त 2009/01 मई 2009

हवलदार देवी सिंह (सं. 2987030एफ अब जेसी-480437एम),
23 सितम्बर 2009/01 मई 2009

हवलदार लाखन सिंह (सं. 2986814एच अब जेसी-480438पी),
17 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009

हवलदार राम सिंह चावरा (सं. 2987777एम अब जेसी-480439एक्स),
01 जुलाई 2009

हवलदार उपेन्द्रा सिंह बघेल (सं. 2986863एल अब जेसी-480440एम),
17 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009

हवलदार राजेश सिंह (सं. 2987606ए अब जेसी-480441पी),
29 अगस्त 2009/16 जुलाई 2009

हवलदार रवी कुमार सिंह (सं. 2986831एच अब जेसी-480443ए),
17 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009

हवलदार बिरेन्द्र सिंह बघेल (सं. 2986612एफ अब
जेसी-480444एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार अली मोहम्मद काजी (सं. 2986608वाई अब
जेसी-480445एल), 01 अगस्त 2009

हवलदार रमेश चन्द (सं. 2987399वाई अब जेसी-480446एन),
01 अगस्त 2009

हवलदार दाता राम गुर्जर (सं. 2986493डब्ल्यू अब
जेसी-480447डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009

हवलदार धनश्याम सिंह (सं. 13616703एच अब जेसी-480451वाई),
01 सितम्बर 2009

हवलदार जेलदार सिंह (सं. 2987108एन अब जेसी-480452ए),
01 सितम्बर 2009

हवलदार टेक चन्द (सं. 2986750एच अब जेसी-480453के),
13 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009

हवलदार राम अवतार सिंह शेखावत, सेना मेडल (सं. 2988810एल
अब जेसी-480454एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2987898एन अब जेसी-480455पी),
01 सितम्बर 2009

हवलदार देवान सिंह (सं. 2987999एफ अब जेसी-480456एक्स),
01 सितम्बर 2009

हवलदार श्री मन सिंह गुर्जर (सं. 2990562वाई अब जेसी-480457ए),
01 सितम्बर 2009

हवलदार रमेश चन्द्रा गुर्जवार (सं. 2985958वाई अब
जेसी-480458एच), 06 सितम्बर 2009/04 सितम्बर 2009

हवलदार शिव प्रताप सिंह कुशवाह (सं. 2987292के अब
जेसी-480459एल), 30 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009

हवलदार ओम सिंह (सं. 2988391वाई अब जेसी-480460ए),
03 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009

हवलदार सन्तोष कुमार (सं. 2988402ए अब जेसी-480461एच),
03 अक्टूबर 2009/13 अगस्त 2009

हवलदार जगदिश गुर्जर (सं. 2989282वाई अब जेसी-480462एल),
14 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009

हवलदार झमेलि राम गुर्जर (सं. 2985535एल अब जेसी-
480464डब्ल्यू), 13 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009

हवलदार नरपत सिंह (सं. 2985685एफ अब जेसी-480465वाई),
13 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 2987510एक्स अब जेसी-480466एफ),
30 सितम्बर 2009/06 सितम्बर 2009

हवलदार भाले राम (सं. 2987566के अब जेसी-480467के),
30 सितम्बर 2009/06 सितम्बर 2009

हवलदार लाल बहादुर सिंह भदौरिया (सं. 2988437डब्ल्यू अब
जेसी-480471एम), 09 अक्टूबर 2009/27 सितम्बर 2009

हवलदार धिरेश कुमार सिंह (सं. 2987588एच अब जेसी-480472पी),
28 अक्टूबर 2009/29 सितम्बर 2009

हवलदार शिव प्रताप सिंह (सं. 2987631वाई अब जेसी-480474ए),
25 अक्टूबर 2009/30 सितम्बर 2009

हवलदार पुरन सिंह शेखावत (सं. 2988444एम अब
जेसी-480475एच), 09 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009

हवलदार सतेन्द्रा पाल सिंह (सं. 2988456एफ अब जेसी-480476एल),
09 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009

हवलदार गुलाब सिंह गुर्जर (सं. 2987279ए अब जेसी-480478डब्ल्यू),
20 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009

हवलदार जिले सिंह (सं. 2988006के अब जेसी-480479वाई),
09 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रूप में

हवलदार (लिपिक) आर श्रीनिवासन (सं. 2988194एक्स अब जेसी-480421एफ), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) पुरन चन्द (सं. 2986195डब्ल्यू अब जेसी-480422एफ), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) जगदीश सिंह (सं. 2986203एन अब जेसी-480427एच), 01 जुलाई 2009

हवलदार (लिपिक) गवारा कृष्णा विठोबा (सं. 2986206पी अब जेसी-480428एल), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार प्रहलाद सिंह (सं. 2985962के अब जेसी-480418एफ),
17 जुलाई 2009/11 मई 2006

हवलदार अभे राम (सं. 2986692के अब जेसी-480419के), 01 मई 2009

हवलदार सुन्दरेश्वर सिंह (सं. 2987633के अब जेसी-480420वाई),
01 मई 2009

हवलदार चमन सिंह नागर (सं. 2985565एच अब जेसी-480423एम),
15 जून 2009/01 जून 2009

हवलदार भरत लाल गुर्जर (सं. 2985204पी अब जेसी-480424पी),
01 जून 2009

हवलदार आनन्द नन्द दुबे (सं. 2990596एम अब जेसी-480425एक्स), 01 जून 2009

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 2987100एफ अब जेसी-480426ए),
01 जून 2009

हवलदार सुजय कुमार दास (सं. 8033191एक्स अब जेसी-480429एन), 01 जुलाई 2009

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 2988159एक्स अब जेसी-480430एच),
01 जुलाई 2009

हवलदार जगदीश प्रसाद गुर्जर (सं. 2987550वाई अब जेसी-480431एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2987238डब्ल्यू अब जेसी-480432एन),
01 जुलाई 2009

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9088445डब्ल्यू अब जेसी-593779एन),
25 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 9088655ए अब जेसी-593780एक्स),
01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रघुपाल सिंह (सं. 9088064वाई अब जेसी-593781एल),
01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार निसार अहमद भट (सं. 9102927एच अब जेसी-593782एन), 17 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 22 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मंदन लाल (सं. 9086456एन अब जेसी-593783डब्ल्यू),
25 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 22 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 9088976एक्स अब जेसी-593784वाई),
17 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 22 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद सादिक (सं. 9094197एल अब जेसी-593785एफ),
04 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 22 फरवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हिम्मत लाल (सं. 9088357के अब जेसी-593786के),
17 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अप्रैल 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार झंगीर अहमद (सं. 9088112एच अब जेसी-593787एम),
15 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 9088523एम अब जेसी-593788पी),
15 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अत्तर हुसैन (सं. 9088622पी अब जेसी-593789एक्स),
15 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 12 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तिलक राज (सं. 9089128एल अब जेसी-593790एम),
17 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 12 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दविन्दर कुमार (सं. 9089257एल अब जेसी-593791पी),
19 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 12 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तुलसी राम गौतम (सं. 9088994ए अब जेसी-593792एक्स),
23 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार धर्म पाल (सं. 9089261एन अब जेसी-593793ए),
19 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 16 जुलाई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अर्शाद अहमद (सं. 9094188के अब जेसी-593794एच),
20 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार भगवान दास (सं. 9087770डब्ल्यू अब जेसी-593795एल),
01 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 सितम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नानक चंद (सं. 9094318एफ अब जेसी-593796एन),
24 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 सितम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शादी लाल (सं. 9088066के अब जेसी-593797डब्ल्यू),
27 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 सितम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 9089213एन अब जेसी-593798वाई),
23 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 सितम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) विजय सिन्हा (सं. 9094393एल अब जेसी-593770वाई), 06 मई 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 मई 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) संजीव कुमार सिंघी (सं. 3990896के अब जेसी-593777एच), 01 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 11 जून 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) साजल शुक्ला वैध्या (सं. 3991188के अब जेसी-593778एल), 01 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अगस्त 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार पवन कुमार (सं. 13616550के अब जेसी-580973के),
28 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार ईशख अ हमद खान (सं. 13751224पी अब जेसी-580974एम),
06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुधीर पुन (सं. 13752468पी अब जेसी-580975पी),
01 मई 2009

हवलदार कुन्दन लाल (सं. 13752093एफ अब जेसी-580976एक्स),
11 मई 2009

हवलदार अमर सिंह (सं. 13751871पी अब जेसी-580977ए),
01 जून 2009

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13751116एल अब जेसी-580978एच),
01 जून 2009

हवलदार गुलजार अहमद मीर (सं. 13751227एच अब जेसी-580980ए), 28 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार घन श्याम ठाकुर (सं. 13751355ए अब जेसी-580981एच),
01 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13751377वाई अब जेसी-580982एल),
30 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 13751314डब्ल्यू अब जेसी-580983एन),
03 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुख राम (सं. 13751381एफ अब जेसी-580984डब्ल्यू),
01 अगस्त 2009

हवलदार सन्त राम (सं. 13752094के अब जेसी-580985वाई),
01 अगस्त 2009

हवलदार रमेश चन्द (सं. 13752367एफ अब जेसी-580986एफ),
06 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) लक्ष्मीकान्त होय (सं. 3989136पी अब जेसी-580972एफ), 17 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सचिन सोमवंशी (सं. 13753376पी अब जेसी-580979एल),
04 जुलाई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धनाजी खोराटे (सं. 2787337पी अब जेसी-460071वाई),
16 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चौगला (सं. 2784738वाई अब जेसी-460073के),
01 सितम्बर 2009

हवलदार बर्गे चंद्रकांत डी (सं. 2787601एक्स अब जेसी-460074एम),
02 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) प्रताप सिंह (सं. 2783284के अब जेसी-460072एफ),
01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिंदे शरद बापूसाहेब (सं. 2785655एन अब जेसी-460035एन),
06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार अनिल क्रास्ता (सं. 2787899एम अब जेसी-460036डब्ल्यू),
13 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार गंगुर्डे ज्ञानेश्वर देओराम (सं. 2786377के अब जेसी-460037वाई),
03 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा यशवंत शिंदे (सं. 2782842एन अब जेसी-460038एफ),
04 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार देशमुख अमरसिंह दत्तात्रय (सं. 2785463एच अब
जेसी-460039के), 04 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार दलवि संदीप रामचंद्रा (सं. 2787928डब्ल्यू अब
जेसी-460040वाई), 06 मई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार उस्मान नुचियन (सं. 2786307एल अब जेसी-460041एफ),
06 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार मोरे सुदाम किसन (सं. 2786928के अब जेसी-460042के),
08 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार माने ज्ञानदेव दत्तू (सं. 2783759एच अब जेसी-460043एम),
06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार धनबा शेषराव मानिकराव (सं. 2787034ए अब जेसी-
460044पी), 08 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार विजय कलांगन (सं. 2787195एच अब जेसी-
460045एक्स), 15 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार काले नेताजी गोपलराव (सं. 2783530के अब जेसी-
460046ए), 13 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार मधुकर पाटील (सं. 2787017ए अब जेसी-460047एच),
11 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार मसुरकर कृष्णा मसानू (सं. 2785520वाई अब
जेसी-460049एन), 21 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार चौधरी दिलीप पांडुरंग (सं. 2786533एच अब
जेसी-460050एच), 06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार अडवय्या बारागनी (सं. 2785054पी अब जेसी-460051एल), 11 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार मुथू टी एल (सं. 2784247एच अब जेसी-460052एन), 01 जून 2009

हवलदार पाटील वाकोजी शंकर (सं. 2783442एन अब जेसी-460053डब्ल्यू), 06 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार रुद्रापपा मसान्नावर (सं. 2786039एम अब जेसी-460054वाई), 21 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार गोरडे संजय पुंजा (सं. 2785482एफ अब जेसी-460055एफ), 01 जून 2009

हवलदार गायकवड राजेंद्रा बबन (सं. 2787540एल अब जेसी-460056के), 27 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार कदम अविनास माधुकर (सं. 2787559के अब जेसी-460057एम), 15 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) तपास कुमार मजुमदार (सं. 2783204एफ अब जेसी-460048एल), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) नलवडे दिलीप धोंडिया (सं. 2783242एक्स अब जेसी-460058पी), 01 जुलाई 2009

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धीरेन्द्र लामा (सं. 9418892ए अब जेसी-634827ए), 19 जुलाई 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008)

हवलदार (लिपिक) गोरख नाथ (सं. 9417998ए अब जेसी-634832एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार उत्तर कुमार राई (सं. 9419169एल अब जेसी-634833एन), 04 अगस्त 2008

रिक्कूट (धार्मिक गुरु) दामोदर प्रसाद (सं. 634834डब्ल्यू अब जेसी-634834डब्ल्यू), 28 मार्च 2009

रिक्कूट (धार्मिक गुरु) अरविंद कुमार मिश्रा (सं. 634835वाई अब जेसी-634835वाई), 28 मार्च 2009

हवलदार सुबाष राई (सं. 94119420डब्ल्यू अब जेसी-634836एफ), 15 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008)

हवलदार भाबा राम श्रेष्ठा (सं. 9419380ए अब जेसी-634727पी), 01 मई 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008)

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश (सं. 9418339एक्स अब जेसी-6344839पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) प्रताप सिंह (सं. 9418340एम अब जेसी-634839ए), 01 दिसम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार नरेन्द्र कुमार राई (सं. 9418385एम अब जेसी-634840के), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार छवि राज राई (सं. 9418355पी अब जेसी-634841एम), 26 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार पदम बहादुर तामंग (सं. 9419108एन अब जेसी-634842एक्स), 26 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार (संगीतकार) अशोक राई (सं. 9419108एन अब जेसी-634843एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुक बहादुर सुब्बा (सं. 9418418एम अब जेसी-634844ए), 26 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार धन बहादुर सुब्बा (सं. 9418420के अब जेसी-634845ए), 26 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार लोकेन्द्र नेम्बांग (सं. 9419546डब्ल्यू अब जेसी-634846एल), 11 फरवरी 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार तारा बहादुर राई (सं. 9419616के अब जेसी-634847एन), 15 नवम्बर 2008

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 06 नवम्बर 2008)

- हवलदार (लिपिक) कैलाश चंद सेन (सं. 9417779वाई अब जेसी-34848डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008
- हवलदार दीपेश रई (सं. 9418147ए अब जेसी-634849वाई), 09 दिसम्बर 2008
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)
- हवलदार महेन्द्रा कुमार लिम्बू (सं. 9419632एफ अब जेसी-634850एन), 27 दिसम्बर 2008
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)
- हवलदार (लिपिक) सुरेश रावत (सं. 94118343ए अब जेसी-634851डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009
- हवलदार (लिपिक) रमानंद शर्मा (सं. 94118416एफ अब जेसी-634852डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009
- हवलदार भीष्मा कुमार श्रेष्ठा (सं. 9420478ए अब जेसी-634853एफ), 01 जनवरी 2009
- हवलदार तेज मन लिम्बू (सं. 9418074वाई अब जेसी-634854के), 01 जनवरी 2009
- हवलदार बम बहादुर सुब्बा (सं. 9418545एफ अब जेसी-634855एम), 04 जनवरी 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)
- हवलदार चंद्र कुमार श्रेष्ठा (सं. 9418644के अब जेसी-634856पी), 13 जनवरी 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)
- हवलदार बदन राई (सं. 9418652एच अब जेसी-634857एक्स), 01 जनवरी 2009
- हवलदार राजेन्द्र प्रकाश लिम्बू (सं. 9418640एन अब जेसी-634858एक्स), 01 जनवरी 2009
- हवलदार सुक राज जबेगु (सं. 9419675डब्ल्यू अब जेसी-634859एच), 11 जनवरी 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)
- हवलदार अमर बहादुर राई (सं. 9418178ए अब जेसी-634860एक्स), 07 मार्च 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)
- हवलदार सुक बहादुर अंगदेम्बे (सं. 9418375एच अब जेसी-634861ए), 01 फरवरी 2009
- हवलदार राम कुमार लिम्बू (सं. 9418648ए अब जेसी-634862एक्स), 05 फरवरी 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)
- हवलदार बिकाश राई (सं. 9418548पी अब जेसी-634864एन), 02 मार्च 2009
- हवलदार रूद्र बहादुर प्रधान (सं. 9418692के अब जेसी-634864एन), 02 मार्च 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)
- हवलदार टेक बहादुर राई (सं. 9418433एफ अब जेसी-634865डब्ल्यू), 27 मार्च 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)
- हवलदार पुरना बहादुर राई (सं. 9418439एच अब जेसी-634866वाई), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार संता बीर तामंग (सं. 9418450एन अब जेसी-634867एफ), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार राम बहादुर सुब्बा (सं. 9418571एच अब जेसी-634868के), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार चेत बहादुर लिम्बू (सं. 9418350डब्ल्यू अब जेसी-634869एम), 13 अप्रैल 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)
- हवलदार धन बहादुर राई (सं. 9418593एफ अब जेसी-634870एफ), 06 अप्रैल 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)
- हवलदार पशुपति श्रेष्ठा (सं. 9418694पी अब जेसी-634871के), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार बिजय मुखिया (सं. 9418737वाई अब जेसी-634872एम), 01 अप्रैल 2009
- हवलदार टेक प्रसाद राई (सं. 9419258के अब जेसी-634812एक्स), 27 अगस्त 2008
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2008)
- हवलदार कर्ना बहादुर प्रधान (सं. 9418574डब्ल्यू अब जेसी-634873पी), 01 मई 2009
- हवलदार मुकेश कुमार लिम्बू (सं. 9418554एच अब जेसी-634874एक्स), 01 मई 2009
- हवलदार दशरथ लिम्बू (सं. 9418602एक्स अब जेसी-634875ए), 18 जून 2009
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2009)

हवलदार मंगल बहादुर तामंग (सं. 9418659एम अब जेसी-634876एच), 7 मई 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2009)

हवलदार संत बहादुर राई (सं. 9418585एच अब जेसी-634877एल), 07 जून 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009)

हवलदार श्याम प्रसाद राई (सं. 9418672डब्ल्यू अब जेसी-634878एन), 01 जून 2009

हवलदार रवि राई (सं. 9418696ए अब जेसी-634879डब्ल्यू), 19 जून 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009)

हवलदार सुक लाल तामंग (सं. 9418738एफ अब जेसी-634880एल), 01 जून 2009

हवलदार प्रेम सिंह लामा (सं. 9418745एक्स अब जेसी-634881एन), 01 जून 2009

हवलदार श्याम बहादुर राई (सं. 9418843एक्स अब जेसी-634882डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

हवलदार दिरघा बहादुर लिम्बू (सं. 9418856पी अब जेसी-634883वाई), 01 जुलाई 2009

हवलदार पंच राज मोकतान (तामंग) (सं. 9418756के अब जेसी-634884एफ), 10 अगस्त 2009

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009)

हवलदार सुरेश कुमार तामंग (सं. 9418684एल अब जेसी-634885के), 01 जुलाई 2009

हवलदार चन्द्रा बहादुर राई (सं. 9418926एच अब जेसी-634886एम), 01 अगस्त 2009

हवलदार गणेश बहादुर लिंगदाम (सं. 9418774एम अब जेसी-634887पी), 01 अगस्त 2009

हवलदार देव मन लिम्बू (सं. 9418960एच अब जेसी-634888एक्स), 15 अगस्त 2009

5 जी आर (एफ एफ)

नायब सूबेदार/जीडी के रैंक में

हवलदार जीवन थापा (सं. 5451609एच अब जेसी-617940वाई), 01 मई 2009

हवलदार बुद्धी बहादुर गुरुंग (सं. 5451614एन अब जेसी-617941एफ), 02 मई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गिर बहादुर थापा (सं. 5451626एच अब जेसी-617942के), 02 जून 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5451453डब्ल्यू अब जेसी-617944पी), 01 जुलाई 2009

हवलदार भेम राज गुरुंग (सं. 5450079एम अब जेसी-617945एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार नारायण प्रसाद श्रेष्ठा (सं. 5450348एन अब जेसी-617946ए), 01 अगस्त 2009

हवलदार जीत बहादुर थापा (सं. 5450352डब्ल्यू अब जेसी-617947एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार संता बहादुर घले (सं. 5451547एन अब जेसी-617948एल), 01 अगस्त 2009

हवलदार यादव थापा (सं. 5451751एम अब जेसी-617949एन), 01 अगस्त 2009

हवलदार मनि सुन्दर मगर (सं. 5451632डब्ल्यू अब जेसी-617950एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार हिम लाल पुन (सं. 5450354एफ अब जेसी-617951एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार ज्ञानेन्द्र गुरुंग (सं. 5450002के अब जेसी-617952एन), 24 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार उमान सिंह गाहा (सं. 5450661वाई अब जेसी-617953डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार/लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक समशेर सिंह चमलेगी (सं. 15362055एक्स अब जेसी-617943एम), 10 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक होन शान्तिलाल भास्कर राव (सं. 15361883डब्ल्यू अब जेसी-617954वाई), 15 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक गोपाल प्रसाद पंथि (सं. 15362826एफ अब जेसी-617955एफ), 16 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

8 जी आर

नायब सूबेदार/जीडी के रैंक में

हवलदार ललित बहादुर पुण (सं. 5751570ए अब जेसी-623888एक्स), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सोम बहादुर गुरुंग (सं. 5751787के अब जेसी-623889ए), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ईंदू बहादुर दरलामी (सं. 5751835वाई अब जेसी-623890पी), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार खुम बहादुर गुरुंग (सं. 5751377एच अब जेसी-623891एक्स), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जंग बहादुर गुरुंग (सं. 5751485एक्स अब जेसी-623892ए), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरज गुरुंग (सं. 5752209एफ अब जेसी-623901डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

हवलदार चंद्र बहादुर पुण (सं. 5752026एल अब जेसी-623902वाई), 23 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बिर बहादुर कार्कि (सं. 5751466एम अब जेसी-623903एफ), 02 सितम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार रुद्र बिर चिदि (सं. 5752348एल अब जेसी-623904के), 05 सितम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ग्यानि नाथ राय (सं. 5751567ए अब जेसी-623893एच), 06 जून 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जगत बहादुर थापा (सं. 5752111एन अब जेसी-623894एल), 01 मई 2009

हवलदार चंद्र गुरुंग (सं. 5752191डब्ल्यू अब जेसी-623898एफ), 01 जुलाई 2009

हवलदार खेम बहादुर बुराथोकि (सं. 5752343एम अब जेसी-623899के), 18 जुलाई 2009

हवलदार पुर्ण बहादुर बुधाथोकि (सं. 5752193एफ अब जेसी-623900एन), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार/लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक परमेश्वर मंडल (सं. 5751032एम अब जेसी-623895एन), 01 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक बपोद्रा विक्रम अर्शीभाई (सं. 5751473एच अब जेसी-623896डब्ल्यू), 25 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक चंद्र शेखर रौय (सं. 5752179पी अब जेसी-623897वाई), 06 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक देव नारायण यादव (सं. 5752188डब्ल्यू अब जेसी-623905एम), 01 सितम्बर 2009

पंजाब रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 2479855एफ अब जेसी-430600एल), 10 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार रमेश कुमार शर्मा (सं. 2481178एन अब जेसी-430601एन), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार काबूल सिंह (सं. 2479351एन अब जेसी-430602डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार संसार सिंह (सं. 2479542एच अब जेसी-430603वाई), 15 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 2479577वाई अब जेसी-430604एफ),
21 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 2479838एफ अब जेसी-430605के),
03 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार विरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 2482173एफ अब जेसी-
430606एम), 01 नवम्बर 2009

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 2479384वाई अब जेसी-430607पी),
20 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार इन्द्र देव (सं. 2481283के अब जेसी-430608एक्स),
01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अनन्ता कुमार नायक (सं. 2482026वाई अब
जेसी-430569के), 19 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) माला राम देवरा (सं. 2482076के अब
जेसी-430563एच), 20 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) गंगा राम विशनोई (सं. 2482078पी अब
जेसी-430570वाई), 18 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) अश्वनी कुमार कालसा (सं. 2482079एक्स
अब जेसी-430571वाई), 22 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) राज कपूर सिंह (सं. 2481956एन अब
जेसी-430565एन), 28 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) सुभाष चन्द्र अत्रि (सं. 2478129ए अब
जेसी-430566डब्ल्यू), 04 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) राज कुमार शर्मा (सं. 2478458डब्ल्यू अब
जेसी-430581एल), 21 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) लाल बहादुर सिंह (सं. 2479815ए अब
जेसी-430567वाई), 03 अगस्त 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) साबू एस (सं. 2480690ए अब जेसी-
430572के), 22 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रामू पाटील (सं. 2481338एच अब
जेसी-430564एल), 17 जुलाई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

असम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार कमला कान्ता सिन्हा (सं. 4359272पी अब जेसी-
549850डब्ल्यू), 18 नवम्बर 2009/21 मई 2009 *

हवलदार त्रिपेन हज़ारिका (सं. 4360696एक्स अब जेसी-
549860ए), 01 अक्टूबर 2009

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th July 2010

ARMY BRANCH

No. 365, dated 11th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kewal Singh (JC-519655K), 07 Jul 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay & allowances)

Sub Palden Giachho, SC (JC-519631A), 01 Jul 2009

Sub Perveen Kumar (JC-519864F), 01 Jul 2009

Sub Sunit Singh (JC-519720Y), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

To be Sub

Nb Sub Pyare Lal (JC-520217N), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 25 May 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rachhpal Chand (JC-520543W), 24 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-520459W), 04 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Balbir Singh (JC-520508N), 04 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Parshotam Kumar (JC-520515K), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mul Raj (JC-520521X), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bhim Singh (JC-520522A), 14 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-520586L), 04 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Purushotam Chand (JC-520581M), 19 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Balwant Raj (JC-520613K), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Nirmal Singh, SM (JC-520623N), 17 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Hans Raj (JC-520642Y), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jayoti Parkash (JC-520661K), 17 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subash Chand (JC-520687Y), 17 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Davinder Singh (JC-520725K), 29 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Pushvinder Singh (JC-520527Y), 22 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 13 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kushal Singh (JC-520329N), 03 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 Jun 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Pawan Kumar (JC-520605L), 24 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-520519A), 20 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay & allowances)

INFANTRY (11 GR)

To be Sub Maj

Sub Kalindra Prasad Limbu, SM (JC-634267Y), 01 Oct 2008

Sub Gopal Prasad Pradhan (JC-634136N), 01 Oct 2008

Sub Dil Prasad Rai (JC-634240F), 16 Jan 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

Sub Til Bir Rai (JC-634266W), 18 Mar 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Mar 2009)

Sub Naresh Bahadur (JC-634277H), 01 Apr 2009

Sub Yakup Tshering Lepcha (JC-634262A), 01 Jul 2009

Sub Tek Bahadur Limbu (JC-634108F), 01 Aug 2009

To be Sub

Nb Sub Ran Bahadur Limbu (JC-634547M), 20 May 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 11 Apr 2008)

Nb Sub Bir Man Tamang (JC-634553A), 13 May 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 12 Apr 2008)

Nb Sub Tika Bahadur Thapa (JC-634717L), 12 May 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 May 2008)

Nb Sub Shiva Prasad Subba (JC-634563K), 13 May 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 May 2008)

Nb Sub Bhoj Kumar Rai (JC-634650X), 28 May 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 May 2008)

Nb Sub Moti Raj Limbu (JC-634621H), 28 Jun 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 12 May 2008)

Nb Sub Prem Kumar Limbu (JC-634588W), 14 Oct 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2008)

Nb Sub (Clk) Harbans Lal Talgotra (JC-634418M), 01 Jul 2008

Nb Sub Hem Bahadur Sahi (JC-634726M), 30 Aug 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2008)

Nb Sub (Clk) Bijay Pal Singh (JC-634456H), 01 Aug 2008

Nb Sub Narad Mani Rai (JC-634666H), 01 Sep 2008

Nb Sub Nabin Rai (JC-634696A), 04 Sep 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2008)

Nb Sub Kumar Rai (JC-634622L), 15 Sep 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2008)

Nb Sub (Clk) Madhav Shrestha (JC-634476W), 01 Oct 2008

Nb Sub Prem Kumar Rai (JC-634623N), 03 Oct 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2008)

Nb Sub Aman Gurung (JC-634668H), 01 Oct 2008

Nb Sub Padam Bahadur Subba (JC-634689K), 01 Oct 2008

Nb Sub Ram Kumar Moktan (JC-634690Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Gajendra Bahadur Limbu (JC-634691F), 25 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2008)

Nb Sub Thagindra Kumar Shrestha (JC-634701A), 20 Dec 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2008)

Nb Sub Kamal Kumar Rai (JC-634730P), 12 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2008)

Nb Sub (Clk) Man Mohan Lal Sharma (JC-634482K), 01 Dec 2008

Nb Sub Krishna Kumar Pradhan (JC-634635H), 01 Dec 2008

Nb Sub Santa Kumar Rai (JC-634651A), 01 Dec 2008

Nb Sub Yub Raj Limbu (JC-634704N), 01 Dec 2008

Nb Sub Sita Ram Shrestha (JC-634737Y), 01 Dec 2008

Nb Sub (Clk) Riyasat Ali Khan (JC-634517P), 01 Jan 2009

Nb Sub (Clk) Raj Kumar Sharma (JC-634584A), 01 Jan 2009

Nb Sub Indra Bahadur Limbu (JC-634637N), 01 Jan 2009

Nb Sub Prajit Pradhan (JC-634658K), 01 Jan 2009

Nb Sub Chandra Prasad Gurung (JC-634664X), 01 Jan 2009

Nb Sub Dharmendra Singh Basnet (JC-634636L), 16 Jan 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2009)

Nb Sub Dhan Raj Limbu (JC-634665A), 04 Jan 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2009)

Nb Sub Binda Prasad Rai (JC-634667L), 02 Feb 2009
(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2009)

Nb Sub Khadka Bahadur Rai (JC-634710F), 01 Jan 2009

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-634746A), 01 Jan 2009

Nb Sub Madan Kumar Shrestha (JC-634638W), 01 Feb
2009

Nb Sub Tshering Tamang (JC-634647X), 01 Feb 2009

Nb Sub Naina Lal Rai (JC-634712M), 05 Feb 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2009)

Nb Sub Bhim Bahadur Dewan (JC-634732A), 03 Feb 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2009)

Nb Sub Harish Chandra Rai (JC-634669W), 06 Mar 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Mar 2009)

Nb Sub Budha Sherpa (JC-634678X), 01 Mar 2009

Nb Sub Jiwan Rai (JC-634677P), 01 Apr 2009

Nb Sub Durga Bahadur Limbu (JC-634738F), 13 Apr 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Apr 2009)

Nb Sub Chandra Prasad Limbu (JC-634679A), 01 Apr
2009

Nb Sub Topgay Bhutia, VSM (JC-634721N), 01 Apr 2009

Nb Sub Dilli Prasad Rai (JC-634670L), 01 Apr 2009

Nb Sub Surendra Kumar Rai (JC-634713P), 01 Apr 2009

Nb Sub Gopal Limbu (JC-634723Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Manoj Kumar Rai (JC-634683H), 01 May 2009

Nb Sub Lok Bahadur Limbu (JC-634703L), 01 May 2009

Nb Sub Lokendra Limbu (JC-634702H), 01 May 2009

Nb Sub Harish Pradhan (JC-634753W), 01 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Tilak Bahadur Rai (JC-634684L), 01 Jun 2009

Nb Sub Ram Bahadur Tamang (JC-634685N), 01 Jun 2009

Nb Sub Asal Kumar Limbu, SM (JC-634686W), 01 Jun
2009

Nb Sub Rabin Kumar Limbu (JC-634727P), 01 Jun 2009

Nb Sub Mani Kumar Rai (JC-634751L), 06 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Karna Bhadur Pradhan (JC-634761P), 06 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Lok Bahadur (JC-634762X), 06 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Bhim Bahadur Rai (JC-634756K), 12 Aug 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Lila Rai (JC-634739K), 06 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Subha Raj Rai (JC-634780A), 01 Jul 2009

Nb Sub Hem Kumar Rai (JC-634783N), 23 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2009)

Nb Sub Ambar Bahadur Limbu (JC-634765L), 06 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2009)

Nb Sub (Clk) Bhakta Bahadur Bishwakarma (JC-634604H),
01 Jul 2009

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2009)

Nb Sub (Clk) Amar Nath (JC-634653L), 01 Jul 2009

INFANTRY

JAK LI

To be Substantive Sub Maj (GD) and (Clk)

Sub (GD) Mohd Qasam (JC-592424W), 23 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef
01 Feb 2009)

Sub (GD) Daleep Singh (JC-592546A), 18 May 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef
01 May 2009)

Sub (GD) Mohd Sadiq (JC-592584W), 14 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jul
2009)

Sub (GD) Sagar Singh (JC-592744L), 01 Aug 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Aug 2009)

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Ratan Singh Deb (JC-539369K), 29 May 2009/01 Feb 2009*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect pay and allowances)

Sub Laxman Singh (JC-539300A), 01 May 2009

Sub Shamsher Singh (JC-539102P), 01 May 2009

Sub Inder Singh (JC-539340F), 01 May 2009

THE NAGA REGIMENT

Sub Y Chembise (JC-590037H), 18 May 2009/01 May 2009*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2009 without effect pay and allowances)

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Jagdish Chand (JC-579404K), Jak Rif, 01 Dec 2008

Sub Roshan Lal Gurung (JC-578867M), Jak Rif, 01 Aug 2009

Sub Satnam Singh (JC-579189K), Jak Rif, 01 Aug 2009

Sub Ravinder Singh (JC-579234L), Jak Rif, 01 Aug 2009

Sub Dilbag Singh (JC-579707Y), Jak Rif, 01 Aug 2009

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Vinod Kumar, SM (JC-580349L), Jak Rif, 01 Apr 2008

Nb Sub Irshad Khan (JC-580134M), Jak Rif, 01 Jun 2008

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580283A), Jak Rif, 01 Mar 2009

Nb Sub Raj Kumar (JC-580441K), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Satish Chand (JC-580466W), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Subhash Chander (JC-580473M), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Mast Ram Sharma (JC-580477H), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Amarjit Singh (JC-580483W), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-580484Y), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Gurnam Singh (JC-580561H), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Bhola Singh (JC-580565Y), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Satish Chand (JC-580494P), Jak Rif, 01 Jul 2009

Nb Sub Lal Singh (JC-580609L), Jak Rif, 01 Aug 2009

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Manjit Singh (JC-498750A), 13 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Pritam Singh (JC-498764A), 03 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Piara Singh (JC-498765H), 03 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Ramesh Kumar (JC-498734H), 25 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Shamsher Singh (JC-499637X), 31 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 17 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harpal Singh (JC-499599M), 08 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 11 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gulzar Singh (JC-499728F), 15 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nidhan Singh (JC-499669A), 06 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Dilip Kumar (JC-499657L), 01 Jul 2009

To be Sub Maj

Sub Dalbir Singh (JC-498752L), 24 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Kuldip Singh, SM (JC-498792M), 18 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Paramjit Singh (JC-498787F), 01 Jul 2009

Sub Rattan Singh (JC-498869K), 01 Jul 2009

Sub Thana Singh (JC-498890M), 03 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Jagdish Singh (JC-499570K), 09 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-499572P), 09 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baljinder Singh (JC-499592H), 09 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ballam Singh (JC-499704X), 20 Apr 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 28 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499769L), 15 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 03 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sucha Singh (JC-499774W), 01 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harjinder Singh (JC-499702M), 29 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 28 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagtar Singh (JC-499573X), 01 Jul 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Rohtas (JC-499528L), 07 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Uma Kant Dubey (JC-499656H), 23 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Braham Parkash (JC-488645W), 01 Jan 2007

Sub Sammat Singh (JC-488332X), 01 Mar 2007

Sub Jai Singh (JC-488400A), 01 Mar 2007

Sub Dharamvir (JC-488448N), 01 Apr 2007

Sub Gopal Singh Jat (JC-488496N), 01 Aug 2007

Sub Onkar Singh (JC-488319N), 01 Aug 2007

Sub Rajender Singh Malik (JC-488642H), 01 Sep 2007

Sub Mahabir Prasad (JC-488566F), 01 Nov 2007

Sub Arjun Singh (JC-488404W), 01 Dec 2007

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Dharam Singh (JC-488476A), 01 Dec 2007

Sub Krishan Kumar (JC-488677X), 01 Nov 2007

Sub Duli Chand Nehra (JC-488296X), 22 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Sub Jai Bhagwan (JC-489049W), 01 Jan 2008

Sub Rajbir (JC-488948L), 01 Jan 2008

Sub Rupa Ram (JC-488911K), 01 Feb 2008

Sub Daya Chand (JC-488293K), 16 Apr 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Yudhvir Singh (JC-488477H), 04 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Chandgi Ram (JC-488501N), 01 May 2008

Sub Kiran Pal Singh (JC-488704X), 01 May 2008

Sub Sukhbir Singh (JC-488648K), 01 May 2008

Sub Kanchan Singh Baghel (JC-488856Y), 01 Jun 2008

Sub Mehtav Singh (JC-488422Y), 02 May 2008

Sub Dharambir Singh (JC-488761Y), 01 Aug 2008

Sub Chandi Ram (JC-488827K), 01 Jun 2008

Sub Albel Singh, SM (JC-488829P), 24 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 June 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Prem Singh Dhanda (JC-488935N), 01 Aug 2008

Sub Ram Deva Ram (JC-488937Y), 03 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Mool Chand (JC-488902H), 22 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Lekh Raj Singh (JC-488869W), 04 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Jagram Singh (JC-488983N), 01 Nov 2008

Sub Suresh Kumar (JC-489039M), 01 Nov 2008

Sub Ramvir Singh (JC-488731F), 01 Nov 2008

Sub Raj Singh (JC-488751P), 01 Jan 2009

Sub Subhash Chandra Arya (JC-489154M), 01 Feb 2009

To be Sub Maj (Clk)

Sub Mahipal Singh (JC-488389M), 01 Nov 2007

Sub Sudhir Sharma (JC-488453Y), 01 May 2008

Sub Kaptan Singh Rathee (JC-488429H), 06 Jun 2008

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Jaivir Singh Bana (JC-488499F), 04 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Amar Singh (JC-488557A), 01 Mar 2009

To be Sub

Nb Sub Mahender Singh (JC-489832F), 16 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Karan Singh (JC-489847K), 20 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Prakash (JC-489881K), 16 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jogendar Singh (JC-489884X), 01 Jun 2008

Nb Sub Kumar Singh (JC-489923L), 04 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chhabi Nath (JC-489928K), 01 Jun 2008

Nb Sub Rambir Singh (JC-489979X), 01 Jun 2008

Nb Sub Ram Karan Jat (JC-489771P), 29 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Somveer (JC-489762N), 01 Jul 2008

Nb Sub Balwan Singh (JC-489753M), 01 Jul 2008

Nb Sub Devendra Singh (JC-489785P), 01 Jul 2008

Nb Sub Om Prakash (JC-489786X), 16 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kalu Ram Galwa (JC-489777W), 01 Jul 2008

Nb Sub Tejvir Singh (JC-489821P), 01 Jul 2008

Nb Sub Bhim Singh (JC-489826N), 01 Jul 2008

Nb Sub Vinod Kumar (JC-489827W), 01 Jul 2008

Nb Sub Rajender Singh Panwar (JC-489858W), 18 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bijender Singh (JC-489842L), 17 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukh Lal (JC-489846F), 23 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nawal Kishor Yadav (JC-489861W), 01 Jul 2008

Nb Sub Rajbir Singh (JC-489886H), 01 Jul 2008

Nb Sub Baljit Singh (JC-489887L), 15 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nihal Singh (JC-489897P), 05 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Randhir Singh (JC-489906L), 20 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Udaivir Singh (JC-489907N), 25 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dal Chand (JC-489921A), 26 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Subhash Chander (JC-489910N), 15 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Parkash (JC-489794W), 01 Jul 2008

Nb Sub Pratap Singh (JC-489980M), 01 Jul 2008

Nb Sub Noka Ram (JC-489984H), 13 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-489987W), 01 Jul 2008

Nb Sub Rajendra Singh Mitharwal (JC-490000M), 01 Jul 2008

Nb Sub Mula Ram (JC-490011Y), 10 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Niwas (JC-490014M), 01 Jul 2008

Nb Sub Raj Pal (JC-489830W), 07 Dec 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

THE MAHAR REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Dharmendra Singh (JC-569724L), 28 Jul 2007@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Jul 2007)

Nb Sub Harpal Singh (JC-569614W), 22 Nov 2007#

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2007)

Nb Sub Santa Bahadur Pradhan (JC-569143N), 17 Aug 2007\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Aug 2007)

Nb Sub Dewamohan Janardan Ambhore (JC-569363X), 01 Sep 2007

Nb Sub Tripurari Singh (JC-569472K), 01 Sep 2007

Nb Sub Kamble Shiv Ling Manik (JC-569482N), 01 Sep 2007

Nb Sub Bhalerao Prakash Onkar (JC-569527H), 01 Sep 2007

Nb Sub Rare Singh Manhar (JC-569536K), 15 Oct 2007%

Nb Sub Raghunath Singh Pachere (JC-569630N), 01 Sep 2007

Nb Sub Ratan Pal Singh (JC-569681F), 01 Sep 2007

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-569683M), 01 Sep 2007

Nb Sub Darwan Singh (JC-569704X), 05 Sep 2007%

Nb Sub Kamal Kumar Yadav (JC-569725N), 01 Sep 2007

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2007)

Nb Sub Bharat Singh (JC-569583F), 06 Sep 2007^

Nb Sub Hillale Sanjay Rama (JC-569473M), 03 Oct 2007^

Nb Sub Vilas Mohan Kamble (JC-569477H), 06 Oct 2007^

Nb Sub Bhimrao Pandurang Waghmare (JC-569480H), 12 Oct 2007^

Nb Sub Ram Lal (JC-569505K), 01 Oct 2007

Nb Sub Mahakant Jha (JC-569578W), 01 Oct 2007

Nb Sub Prabhu Nath Yadawa (JC-569581W), 01 Oct 2007

Nb Sub Sant Bir Singh (JC-569582Y), 01 Oct 2007

Nb Sub Alexius Aind (JC-569585M), 01 Oct 2007

Nb Sub Gyan Chand Sahu (JC-569601Y), 01 Oct 2007

Nb Sub Janardan Singh Majila (JC-569590X), 01 Oct 2007

Nb Sub Adagale Deepak Damodar (JC-569610A), 01 Oct 2007

Nb Sub Darwan Singh (JC-569644N), 02 Oct 2007^

Nb Sub Pritam Singh (JC-569645W), 04 Oct 2007^

Nb Sub Ganesh Ram (JC-569650F), 09 Oct 2007^

^(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Nb Sub Gautam Kumar Parashram Sonone (JC-569376P), 20 Oct 2007&

Nb Sub Sahdeo Baburao Kate (JC-569382H), 02 Oct 2007

&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Nb Sub Partap Singh (JC-569295P), 15 Nov 2007*

Nb Sub Balbir Singh (JC-569301X), 01 Nov 2007

Nb Sub Jagdish Singh (JC-569411M), 01 Nov 2007

*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2007)

Nb Sub Kamlesh Ram Tiwari (JC-569530H), 10 Feb 2007@

Nb Sub Thokale Muralidhar Govind (JC-569220X), 01 Jan 2007

Nb Sub Kumar Sapkal Dayanand Chandu (JC-569391K), 08 Jan 2007

Nb Sub Jogdand Tryambak Tulshiram (JC-569422Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Ingle Babarao Pundlik (JC-569423F), 01 Jan 2007

Nb Sub Mohan Lal (JC-569491P), 28 Jan 2007@

Nb Sub Jag Ram (JC-569551Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Balwant Singh (JC-569552F), 01 Jan 2007

Nb Sub Rajinder Singh (JC-569562L), 01 Jan 2007

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2007)

Nb Sub Sumanta Kumar Nayak (JC-569454F), 05 Apr 2007#

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 10 Jan 2007)

Nb Sub Badha Charan Baskey (JC-569532N), 07 Apr 2007\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 18 Jan 2007)

Nb Sub Isbir Singh (JC-569344M), 01 Feb 2007

Nb Sub Yadu Nath Singh (JC-569221A), 01 Feb 2007

Nb Sub Ram Gopal Dan (JC-569449W), 01 Feb 2007

Nb Sub Chauhan Arvind Kumar Ramu Sinh (JC-569487M), 01 Feb 2007

Nb Sub Gunanidhi Nayak (JC-569510P), 27 Mar 2007%
 Nb Sub Chet Ram (JC-569718X), 01 Oct 2007%
 %(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2007)
 Nb Sub Purusottam Satapathy (JC-569453Y), 05 Feb 2007
 Nb Sub Sivadasan K S (JC-569309K), 10 Apr 2007^
 Nb Sub Alam Singh (JC-569331P), 01 Mar 2007
 Nb Sub Lakhpat Singh (JC-569332X), 01 Mar 2007
 Nb Sub Sumer Singh (JC-569347A), 01 Mar 2007
 Nb Sub Sonone Anil Raghunath Rao (JC-569518F), 25 Apr 2007^
 Nb Sub Krishan (JC-569567K), 01 Apr 2007^
 ^ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2007)
 Nb Sub Ram Niwas (JC-569294M), 01 Apr 2007
 Nb Sub Lakhmi Chand (JC-569435W), 23 May 2007&
 Nb Sub Anil Kumar Singh (JC-569476A), 16 May 2007&
 Nb Sub Gokul Chandra Barik (JC-569486K), 08 Apr 2007&
 Nb Sub Khandare Sanjay Gopalrao (JC-569508X), 05 Jul 2007&
 Nb Sub S K Amanullah (JC-569525X), 14 May 2007&
 Nb Sub Alhat Popat Vitthal (JC-569555P), 13 Jul 2007&
 Nb Sub Randive Shankar Sambhaji (JC-569558H), 19 Jul 2007&
 & (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2007)
 Nb Sub Londhe Vijay Bhivrao (JC-569322N), 05 May 2007*
 * (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2007) —
 Nb Sub Baneswar Roy (JC-569451N), 07 May 2007
 Nb Sub Jagbir Singh (JC-569668X), 12 Jun 2007<
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-569600W), 01 Jun 2007
 Nb Sub Vijay Singh (JC-569605P), 12 Jun 2007<
 Nb Sub Chandrajeet Yadav (JC-569612L), 06 Jul 2007<
 Nb Sub Jairaj Bhatt (JC-569595W), 01 Jun 2007
 Nb Sub Gugan Ram (JC-569632Y), 19 Jun 2007<
 Nb Sub Prakash Singh (JC-569633F), 14 Jun 2007<
 Nb Sub Dalbir Singh (JC-569634K), 21 Jun 2007<
 Nb Sub Ranbhir Singh (JC-569641A), 01 Jun 2007
 Nb Sub Ram Lal (JC-569642H), 01 Jun 2007
 Nb Sub Dharambir (JC-569643L), 01 Jun 2007
 Nb Sub Khaim Singh (JC-569685X), 01 Jun 2007
 Nb Sub Gurmeet Singh (JC-569686A), 07 Jul 2007<
 Nb Sub Rama Ratan (JC-569697M), 03 Aug 2007<

Nb Sub Ramesh Chand (JC-569710L), 01 Jun 2007
 Nb Sub Jasbir Singh (JC-569711N), 06 Jul 2007<
 Nb Sub Gulzar Singh (JC-569712W), 06 Jul 2007<
 < (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2007)
 Nb Sub Suresh Santram Goture (JC-569064Y), 19 Jul 2007>
 > (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 11 Jun 2007)
 Nb Sub Pradip Kumar (JC-569534Y), 16 Jul 2007@@
 @@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Jun 2007)
 Nb Sub Shine P Mathew (JC-569452W), 15 Jun 2007
 Nb Sub Lok Raj (JC-569671X), 30 Oct 2007##
 ## (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 27 Jun 2007)
 Nb Sub Hari Datt Bhatt (JC-569502W), 01 Jul 2007
 Nb Sub Kamlesh Chandra (JC-569545L), 01 Jul 2007
 Nb Sub Kambale Shrikant Yashawant (JC-569560A), 24 Jan 2008\$\$
 Nb Sub Karnail Singh (JC-569533W), 03 Jul 2007\$\$
 Nb Sub Kamble Baburao Nana (JC-569564W), 09 Nov 2007\$\$
 Nb Sub Krishna Prasad Singh (JC-569539X), 02 Jul 2007\$\$
 Nb Sub Thoke Sopan Rambhau (JC-569568M), 20 Nov 2007\$\$
 Nb Sub Vish Ram Singh (JC-569616F), 03 Jul 2007\$\$
 Nb Sub Balwant Singh (JC-569701K), 02 Jul 2007\$\$
 \$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2007)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Darshan Singh (No. 2479682P now JC-430573M), 01 May 2009
 Hav Rimal Singh (No. 2478935M now JC-430574P), 21 Jul 2009
 (Granted ante dt seniority without effect on pay and allowances wef 16 May 2009)
 Hav Mehtab Singh (No. 2479233A now JC-430575X), 25 July 2009
 (Granted ante dt seniority without effect on pay and allowances wef 16 May 2009)
 Hav Pawan Kumar (No. 2480064W now JC-430576A), 25 Jul 2009
 (Granted ante dt seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2009)

Hav Mohinder Paul (No. 2480070K now JC-430577H),
22 Jul 2009

(Granted ante dt seniority without effect on pay and allowances wef 12 Jun 2009)

Hav Kanwaljit Singh (No. 2479803L now JC-430578L)
01 July 2009

Hav Resham Pal Singh (No. 2480213Y now JC-430579N),
09 July 2009

(Granted ante dt seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Mukhtiar Singh (No. 2480479L now JC-430580H),
26 Jul 2009

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Murad Khan (No. 2682808Y now JC-450746A),
01 Jan 2009

Hav Virender Singh (No. 2681120A now JC-450747H),
07 Apr 2009

Hav Azad Singh Khunga (No. 2681122L now JC-450748L),
07 Apr 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Suraj Bhan Mishra (No. 2683084Y now JC-450749N), 01 Jul 2009

Hav/Clk Satyendra Kumar Singh (No. 2683367A now JC-450750H), 01 Jul 2009

To be Nb Sub

Hav Dharm Raj Singh Gaur (No. 2681271Y now JC-450735N), 23 Feb 2009

Hav Dharam Chand (No. 2681694M now JC-450736W),
07 Apr 2009

Hav Fajar Ali (No. 2679061A now JC-450737Y), 01 May 2009

Hav Naresh Pal Singh (No. 2681599A now JC-450738F),
01 May 2009

Hav Adaris Ali (No. 2683428M now JC-450739K),
01 May 2009

Hav Sita Ram (No. 2681680M now JC-450740Y), 01 Jun 2009

Hav Randhir Singh (No. 2680506N now JC-450741F),
01 Jun 2009

Hav Lakha Singh (No. 2681021X now JC-450742K),
01 Jun 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Shiv Baksha Ram (No. 15359477X now JC-450743M), 01 Jun 2009

Hav/Clk Mustafa Khan Tawangar Khan (No. 15355778K now JC-450744P), 01 Jun 2009

Hav/Clk Ravi R (No. 2682583F now JC-450745X), 01 Jun 2009

(THE MAHAR REGIMENT)

To be Naib Subedar

Hav Kumar Yadav Vilas Devji (No. 4558681A now JC-570292N), 31 Dec 2008@

@Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008

Hav Rajpal Singh (No. 4069678X now JC-570293W),
22 Dec 2008#

#Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Nov 2008

Hav Surendra Singh (No. 4559524A now JC-570294Y),
10 Jan 2009\$

Hav Lekh Raj (No. 4559650M now JC-570295F), 10 Jan 2009\$

\$Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008

Hav Prem Singh Rawat (No. 4559066P now JC-570296K),
10 Jan 2009%

Hav Swapan Kumar Gain (No. 4558485A now JC-570297M), 10 Jan 2009%

Hav Babulal Choudhary (No. 4560309F now JC-570298P),
10 Jan 2009%

%Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009%

Hav Ahire Madhukar Bhagchand (No. 4561044P now JC-570299X), 15 Aug 2008^

^Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2008

Hav Hardev Singh (No. 456130X now JC-570300F), 26 Jan 2009&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 25 Aug 2008)

Hav Vikash Yashwant Kamble (No. 4561074M now JC-570301K), 01 Sep 2008

Hav Herbir Singh (No. 4559322Y now JC-570302M), 28 Oct 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Shendage Dileep Ramchandra (No. 4561329F now JC-570303P), 08 Nov 2008**

**(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Oct 2008)

Hav Wankhade Vilas Sopan (No. 4562134H now JC-570304X), 14 Nov 2008@@

Hav Mehar Singh (No. 4560083F now JC-570305A), 01 Nov 2008

Hav Anajana Kumar Biswal (No. 4565333F now JC-570306H), 26 Jan 2009@@

Hav Narendra Kumar Singh (No. 4565387H now JC-570307L), 26 Jan 2009@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Dharamvir Singh (No. 4559416W now JC-570308N), 16 Dec 2008##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008)

Hav Sri Girendra Singh Bhadoria (No. 4559945H now JC-570309W), 02 Jan 2009\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

Hav Prem Singh (No. 4558933F now JC-570310L), 01 Jan 2009

Hav Satyapal (No. 4557167K now JC-570311N), 01 Jan 2009

Hav Mitan Singh (No. 4183553A now JC-570312W), 07 Feb 2009%%

%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

Hav Satyavir Yadav (No. 4559863A now JC-570313Y), 14 Jan 2009^^

^^(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Satyavir (No. 4559477N now JC-570314F), 01 Dec 2008

Hav Rakesh Kumar (No. 4559598P now JC-570315K), 01 Dec 2008

Hav Jagdev Singh (No. 4560138A now JC-570316M), 14 Jan 2009&&

Hav Ram Singh Bora (No. 4560156H now JC-570317P), 14 Jan 2009&&

Hav Rakesh Kumar (No. 4560163Y now JC-570318X), 14 Jan 2009&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008)

Hav Pateliya Pashubhai Rama Bhai (No. 7431075N now JC-570319A), 19 Jan 2009>>

Hav Mohan Singh (No. 4560291W now JC-570320P), 20 Jan 2009>>

Hav Tikeswar Sahoo (No. 4560804A now JC-570321X), 31 Jan 2009>>

>>(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

Hav Huseni Maruti Dhor (No. 4557903X now JC-570323H), 17 Nov 2008<<

<<(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 Sep 2008)

Hav Bhore Netaji Rajaram (No. 4559328A now JC-570324H), 02 Dec 2008@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Suresh Kumar Barick (No. 4560274W now JC-570325N), 01 Nov 2008

Hav Prasanna Kumar Parida (No. 4560767X now JC-570326W), 01 Nov 2008

Hav Binod Kumar Sahu (No. 4560770X now JC-570327Y), 01 Nov 2008

Hav Prakash Chandra Patra (No. 4560771A now JC-570328F), 01 Nov 2008

Hav Bana Bihari Swain (No. 4560772H now JC-570329K), 01 Nov 2008

Hav Udaya Kumar Nayak (No. 4560773L now JC-570330Y), 01 Nov 2008

Hav Sadasiba Bhoi (No. 4556778M now JC-570331F), 01 Nov 2008

Hav Ramesh Bhimrao Ingle (No. 4559592N now JC-570332K), 17 Jan 2009####

####(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2008)

Hav Gurbaksh Singh (No. 8031314A now JC-570333M), 01 Jan 2009\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 26 Dec 2008)

Hav Balbir Singh (No. 4559795X now JC-570334P), 16 Jan 2009%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2009)

Hav Kamble Raghunath Ramchandra (No. 4559171L now JC-570335X), 04 Feb 2009^^^

^^^ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Nov 2008)

Hav Ashim Kumar Mandal (No. 4560019K now JC-570336A), 01 Dec 2008

Hav Pravat Mondal (No. 4560859K now JC-570337H), 01 Dec 2008

Hav Virender Singh (No. 4559107N now JC-570178W), 07 May 2008@

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2008)

Hav Ratan Singh (No. 4559073L now JC-570179Y), 28 Jun 2008#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 17 May 2008)

Hav Dharmendra Kumar (No. 4560065Y now JC-570180N),
03 Jun 2008\$

\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2008)

Hav Amarjeet Singh (No. 4558456L now JC-570181W),
01 Jun 2008

Hav Inder Pal Singh (No. 4560293F now JC-570182Y),
07 Jul 2008%

Hav Subey Singh (No. 4561775H now JC-570183F), 07 Jul
2008%

% (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2008)

Hav Avale Krishna Ganapati (No. 4559793M now JC-
570184K), 16 Mar 2008^

^ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 30 Dec 2007)

Hav Roshan Lal (No. 4559675Y now JC-570185M), 01 Jan
2008

Hav Kamble Tukaram Prabhakar (No. 4560877M now JC-
570186P), 10 May 2008&

& (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Aug 2008)

Hav Daljeet Singh (No. 4560415A now JC-570187X), 05 May
2008*

* (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2008)

Hav Aloke Kumar Ghosh (No. 4559055H now JC-570188A),
01 Jul 2008

Hav Bhimrao Vittil Zimur (No. 4559580Y now JC-570189H),
01 Jul 2008

Hav Clk (SD) Laxmidhar Behera (No. 4558164H now JC-
570190X), 01 Sep 2008

Hav Tokase Sudhakar Shankar (No. 4560848X now JC-
570191A), 16 Apr 2008+

+ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 30 Dec 2007)

Hav Upendra Singh (No. 4559314A now JC-570192H),
01 Jul 2008

Hav Mohite Mangesh Babu (No. 4564926F now JC-
570196Y), 12 Jun 2008@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Kamble Dayanand Chandru (No. 4560955Y now JC-
570197F), 25 Jul 2008##

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2008)

Hav Om Prakash (No. 4559673N now JC-570198K), 01 Jul
2008

Hav Maya Ram (No. 4560369W now JC-570199M), 14 Aug
2008\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 11 Jul 2008)

Hav Clk (SD) Chakradhara Dash (No. 4558123Y now JC-
570200W), 01 Aug 2008

Hav Clk (SD) Karunakaran Nair V G (No. 4558208P now JC-
570201Y), 01 Sep 2008

Hav Pravakar Lenka (No. 4557460F now JC-570202F),
02 Jun 2008%%

%% (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Apr 2008)

Hav Pooran Singh Ranawat (No. 4559044W now JC-
570203K), 02 May 2008^^

^^ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 May 2008)

Hav Clk (SD) Rajendra Singh (No. 4558178H now JC-
570204M), 01 Sep 2008

Hav Clk (SD) Munni Lal Yadav (No. 4558179L now JC-
570205P), 01 Sep 2008

Hav Nishanrao Raju Dattuji (No. 4559235L now JC-
570206X), 03 Jun 2008

Hav Nirpendra Das (No. 4560025X now JC-570207A),
20 Aug 2008&&

&& (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 31 Jul 2008)

Hav Ram Chandra Pandey (No. 4556257Y now JC-570208H),
01 Sep 2008

Hav Raj Kumar Ram (No. 8032207L now JC-570209L),
01 Sep 2008

Hav Katara Valsing Bhai Vakta Bhai (No. 4559442X now
JC-570210A), 01 Sep 2008

Hav Madan Lal (No. 4560455F now JC-570211H), 01 Sep
2008

Hav Sundar Singh Bist (No. 4560622M now JC-570212L),
01 Sep 2008

Hav Clk (SD) Jayapal Naik (No. 4558159X now JC-570213N),
01 Aug 2008

Hav Jai Prakash Singh (No. 4561513M now JC-570214W),
01 Aug 2008

Hav Clk (SD) Bhagwan Singh (No. 4558212X now JC-
570215Y), 10 Oct 2008

Hav Clk (SD) Bodhu Ram (No. 2983759M now JC-570216F),
10 Oct 2008**

** (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2008)

Hav Sri Jai Kumar (No. 4561502A now JC-570217K), 15 Jul
2008@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jun 2008)

Hav Mohite Sandesh Sitaram (No. 4558502P now JC-
570218M), 06 Oct 2008###

(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 11 Aug 2008)

Hav Gaikwad Rajaram Madhav Rao (No. 4558525W now
JC-570219P), 06 Oct 2008\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 14 Aug 2008)

Hav Sarvjeet Singh (No. 4560386W now JC-570220K),
01 Sep 2008

Hav Bhamble Pralhad Narayan (No. 4558596X now JC-570221M), 06 Oct 2008%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 19 Sep 2008)

Hav/Clk (SD) R Subramani (No. 4558270F now JC-570222P), 10 Oct 2008^^

Hav/Clk (SD) Rama Kant (No. 4558274X now JC-570223X),
15 Oct 2008^^

Hav/Clk (SD) Chandan Singh (No. 4556902H now JC-570224A), 15 Oct 2008^^

Hav/Clk (SD) Subhash Chand (No. 4557529A now JC-570225H), 06 Oct 2008^^

Hav/Clk (SD) Shriram Babusrao Warthi (No. 4557945L
now JC-570226L), 11 Oct 2008^^

Hav Chaugule Chandrakant Yallappa (No. 4558669Y now
JC-570227L), 06 Oct 2008^^

Hav Bhandare Suryakant Gangaram (No. 4558598H now
JC-570228W), 06 Oct 2008^^

Hav Panwar Anil Tolu (No. 4558705Y now JC-570229Y),
06 Oct 2008^^

^^^(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2008)

Hav Subhash Chand (No. 4558878W now JC-570230N),
01 March 2008

Hav Bahadur Singh (No. 4559398Y now JC-570231W),
03 Sep 2008@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2008)

Hav Chiplunkar Sudesh Keshav (No. 4559329H now JC-570232Y), 13 Aug 2008#

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 04 Aug 2008)

Hav Khandagale Bapu Bhika (No. 4559515Y now JC-570233F), 15 Sep 2008\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 08 Aug 2008)

Hav Nepal Singh Jodha (No. 4561537W now JC-570234K),
08 Sep 2008

Hav Devendra Singh (No. 4561493K now JC-570235M),
12 Sep 2008

Hav Shamsher (No. 4561566L now JC-570236P), 08 Oct
2008%

Hav Pramod Kumar Singh (No. 4561592M now JC-570237X), 08 Oct 2008%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2008)

Hav Pravat Ranjan Jena (No. 4565411N now JC-570238A),
01 Nov 2008

Hav Kultar Singh (No. 4562258X now JC-570239H), 01 Nov
2008

Hav Bhalerao Ankush Lahu (No. 4559717A now JC-570240X), 06 Nov 2008*

Hav Tej Singh (No. 4562238K now JC-570241A), 23 Nov
2008*

Hav Randhir Singh (No. 4559078K now JC-570242H),
30 Aug 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Aug 2008)

Hav Sushil Kumar (No. 4559899Y now JC-570243L), 01 Oct
2008

Hav Dilip Kumar Pradhan (No. 4559506X now JC-570244N),
01 Oct 2008

Hav Sher Singh (No. 4559893X now JC-570245W), 01 Oct
2008

Hav Kaluwa (No. 4559932L now JC-570246Y), 01 Oct 2008

Hav Gourang Nayak (No. 4560271H now JC-570247F), 01 Oct
2008

Hav Samsher Singh (No. 4560444P now JC-570248K),
05 Oct 2008@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2008)

Hav More Balu Mogal (No. 4558346W now JC-570249M),
08 Nov 2008##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 23 Oct 2008)

Hav/Clk (SD) P Prema Kumar (No. 4558352K now JC-570250F), 12 Nov 2008\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2008)

Hav/Clk (SD) Kamal Singh Afria (No. 4558406A now JC-570251K), 01 Nov 2008

Hav Harish Kumar (No. 4559373M now JC-570252M),
01 Nov 2008

Hav Tejender Singh (No. 4561492F now JC-570253P),
02 Dec 2008%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 04 Nov 2008)

Hav Ajit Singh (No. 4561922A now JC-570254X), 02 Dec
2008^^

Hav Basudeb Das (No. 4270656P now JC-570255A), 02 Dec 2008^^

^^ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008)

Hav Sidnaik Ganpati Lagama (No. 4558771F now JC-570256H), 08 Oct 2008&&

&& (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 26 Sep 2008)

Hav Zanke Murlidhar Barsu (No. 4559170H now JC-570257L), 07 Oct 2008**

** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Laxman Singh (No. 4559072H now JC-570258N), 07 May 2008@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Jan 2008)

Hav Suresh Singh Yadav (No. 4560118M now JC-570259W), 13 Nov 2008###

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Trilok Singh Bora (No. 4563567M now JC-570260L), 22 Nov 2008\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Sukhmander Singh (No. 3388833L now JC-500170M), 16 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Harbhajan Singh (No. 3389737H now JC-500171P), 22 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdeesh Singh (No. 3390287H now JC-500172X), 11 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pargat Singh (No. 3388653H now JC-500173A), 20 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gurdev Singh (No. 3386671M now JC-500174H), 13 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Amarjit Singh (No. 3387255P now JC-500175L), 27 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jasbir Singh (No. 3386893F now JC-500176N), 18 Nov 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Amarjit Singh (No. 3388576Y now JC-500177W), 26 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Avtar Singh (No. 13618920X now JC-500178Y), 28 Oct 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Musn) Kashmir Singh (No. 3385707N now JC-500179F), 11 Nov 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub (Musn) wef 17 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dalbir Singh (No. 3390414M now JC-500180W), 08 Nov 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3388835W now JC-500181Y), 12 Nov 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhwinder Singh (No. 3389771H now JC-500182F), 04 Nov 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Singh (No. 3388996Y now JC-500183K), 01 Nov 2009

Hav Avtar Singh (No. 3388681P now JC-500184M), 01 Nov 2009

Hav Buta Singh (No. 3386040K now JC-500143H), 06 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Nishan Singh (No. 3389965L now JC-500144L), 24 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kawaljeet Singh (No. 3389281P now JC-500145N),
10 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gurnam Singh (No. 3389861K now JC-500146W),
17 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
28 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gurmel Singh (No. 3390044X now JC-500147Y),
15 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jagtar Singh (No. 3389560A now JC-500148F), 01 Jul
2009

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Chandan Das (No. 3391315W now JC-500149K),
19 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Baldev Singh (No. 3387635N now JC-500150Y),
28 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Paramjit Singh (No. 3387735Y now JC-500151F),
28 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jasbir Singh (No. 3385307F now JC-500152K), 13 Jun
2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
11 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gurmit Singh (No. 3390650N now JC-500153M),
27 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
04 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Paramjit Singh (No. 3390125X now JC-500154P),
20 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
09 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bikram Singh (No. 3389728F now JC-500155X),
12 May 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Harjinder Singh (No. 3389061L now JC-500156A),
24 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
11 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Major Singh (No. 3387691M now JC-500157H),
17 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dalwinder Singh, SM (No. 3389541P now JC-
500158L), 12 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Darshan Singh (No. 3390065N now JC-500159N),
18 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sarwan Singh (No. 3389062N now JC-500160H),
06 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Parwani Ramesh kumar lalchand (No. 15359281K
now JC-500161L), 22 Jul 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Chatra Ram Bhaker (No. 3391220W now JC-
500162N), 25 Jun 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Narender Kumar (No. 3180589X now JC-490443N),
18 Aug 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Hari Singh (No. 3180502L now JC-490444W), 19 Aug
2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Narayan Jat (No. 3180971N now JC-490445Y),
19 Aug 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Balraj Singh (No. 3181259L now JC-490446F), 05 Aug
2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Krishan (No. 3191616W now JC-490447K), 01 Aug 2009

Hav Shivji (No. 3183766X now JC-490448M), 01 Aug 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Ashim Roy (No. 3180040K now JC-490449P), 10 Aug 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/clk Purushothaman Panakkada (No. 3180044A now JC-490450K), 06 Aug 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Kheta Ram Jat (No. 3180729Y now JC-490435P), 01 Jun 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Karan Singh (No. 3180761N now JC-490436X), 01 Jul 2009*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Viswambhar Singh (No. 3181016A now JC-490437A), 01 Jul 2009

Hav Sumer Singh Bola (No. 3185528K now JC-490438H), 01 Aug 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Prasobha Kumar KC (No. 3179816A now JC-490439L), 01 Jul 2009

Hav/Clk Govinda Das (No. 3179877X now JC-490440A), 14 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Shukdeo prasad Gupta (No. 3179880X now JC-490441H), 21 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk R Gnana Prakasam (No. 3179928A now JC-490442L), 21 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Her Singh Visht (No. 4070086A now JC-530723M), 14 May 2009/09 May 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ranbir Singh (No. 4066246X now JC-530724P), 07 Oct 2009/01 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Uday Singh (No. 8032263K now JC-530725X), 14 Oct 2009/01 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Balbeer Singh Rawat (No. 4069124Y now JC-530726A), 01 Jul 2009

Hav Surender Singh (No. 4070227K now JC-530729N), 01 Oct 2009/01 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Sharma, SM (No. 4068984A now JC-530730H), 01 Sep 2009

Hav Tek Singh (No. 4068972L now JC-530731L), 03 Oct 2009/02 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldeep Singh Negi (No. 4070797A now JC-530732N), 01 Oct 2009

Hav/Clk Balwant Singh (No. 15354413H now JC-530727H), 01 Sep 2009

Hav/Clk Jagmohan Singh Rawat (No. 15354897N now JC-530728L), 01 Sep 2009

Hav Rajendra Singh (No. 4070043L now JC-530710P), 01 Jun 2009/26 Apr 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh Negi (No. 4067433H now JC-530711X), 28 Jul 2009/01 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Singh (No. 4067538M now JC-530712A), 18 Aug 2009/01 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vikram Singh Kandari (No. 4071281K now JC-530714L), 01 Aug 2009

Hav Mohan Lal (No. 4069347W now JC-530715N), 03 Sep 2009/01 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Prasad (No. 4069732A now JC-530716W), 01 Sep 2009

Hav Partap Singh Rawat (No. 4069456H now JC-530717Y),
01 Sep 2009

Hav Madan Singh (No. 4069550M now JC-530718F),
01 Sep 2009

Hav Satyapal Singh (No. 4069264L now JC-530719K),
11 Sep 2009/01 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Sandeep Kumar (No. 4069494Y now JC-530720Y),
11 Sep 2009/01 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Keshar Singh (No. 4069268F now JC-530721F),
01 Sep 2009

Hav Shiva Nand (No. 4069528F now JC-530722K), 01 Sep
2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Ram Niwas Yadav (No. 4069502M now JC-
530713H), 18 Aug 2009/01 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Aug
2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Pavendra Singh (No. 4265811F now JC-530698Y),
10 Aug 2009/01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Girish Chandra (No. 4069524L now JC-530699F),
20 Aug 2009/01 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Deepak Kumar (No. 4069259A now JC-530700L),
16 May 2009

Hav Balwant Singh (No. 4069925A now JC-530701N),
20 Aug 2009/20 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 May
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Harendar Singh (No. 4069894L now JC-530702W),
01 Jun 2009

Hav Laxman Singh (No. 4069207K now JC-530704F),
11 Aug 2009/26 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Tajbar Singh (No. 4069449M now JC-530707P), 01 Aug
2009

Hav Mahipal Singh Bisht (No. 4069500F now JC-530708X),
01 Aug 2009

Hav Bikram Singh Negi (No. 7430592Y now JC-530709A),
01 Aug 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Daleb Singh (No. 4069472A now JC-530703Y),
01 Jul 2009

Hav (Clk) Chandra Mohan (No. 4069487H now JC-
530705K), 17 Aug 2009/01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Zende Satyawar Agand (No. 4069497M now
JC-530706M), 15 Aug 2009/01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Madan Singh (No. 4069714X now JC-530686K),
11 Jul 2009/01 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhimraj Singh (No. 4069730P now JC-530688P),
18 Jul 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Narendra Singh Bhandari (No. 4069321F now JC-
530689X), 20 Jul 2009/16 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh Gusain (No. 4068732N now JC-
530690M), 13 Jun 2009

Hav Rajendra Singh (No. 4068780N now JC-530691P),
13 Jun 2009

Hav Indra Singh (No. 4069309A now JC-530693A),
01 Jul 2009

Hav Jagdish Singh (No. 4070054X now JC-530694H),
01 Jul 2009

Hav Birendra Singh (No. 4067882X now JC-530695L),
25 Jul 2009/01 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Hoshier Singh (No. 4069027F now JC-530696N),
01 Jul 2009

Hav Harinam Singh Gusain (No. 4069454X now JC-
530697W), 01 Aug 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Harish Chandra Singh (No. 4068812L now JC-
530687M), 13 Jul 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Amarpal Singh Negi (No. 4069447F now JC-530692X), 01 Jul 2009

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ved Ram Thakur (No. 3988623H now JC-521053P), 01 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kikkar Singh (No. 3987155F now JC-521054X), 28 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Avtar Singh (No. 3988464W now JC-521055A), 04 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Malkeet Singh (No. 3987402K now JC-521056H), 28 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 3987547P now JC-521057L), 28 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Chand Chandel (No. 3988884W now JC-521058N), 16 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tarshem Chand (No. 3987490L now JC-521059W), 24 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Vinod Kumar (No. 3989303A now JC-521060L), 05 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Kulbhushan Singh (No. 3989345M now JC-521033F), 22 Jun 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tarsem Singh (No. 3987117L now JC-521034K), 27 Jun 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mukhtiar Singh (No. 3987239P now JC-521035M), 12 Jul 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Baldev Singh (No. 3989403L now JC-521036P), 06 Jul 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 30 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gian Singh Pathania (No. 3987703N now JC-521037X), 06 Jul 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 03 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bachan Lal Sharma (No. 3987108K now JC-521038A), 22 Jul 2009

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Gaikwad Sanjay Kashinath (No. 15362447L now JC-521039H), 01 Jul 2009

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk)

Hav Rajesh Singh Kuntia (No. 4270776N now JC-560218Y), 16 Sep 2009/01 Jun 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Unnikrishnan K N (No. 4267786M now JC-560219F), 01 Oct 2009

Hav/Clk Pawar Arun Bhim Rao (No. 4268145M now JC-560220W), 01 Oct 2009

Hav Chitranjan Ojha (No. 4266380M now JC-560221Y), 01 Oct 2009/01 Feb 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav Haldhar Mahanta (No. 4268883W now JC-560222F), 12 Oct 2009/01 Feb 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav Neelakantha Sabar (No. 4268937M now JC-560223K), 01 Oct 2009/19 Feb 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav Aditya Kumar Nirala (No. 4265711W now JC-560224M), 01 Oct 2009/01 Apr 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ranka Nidhi Behera (No. 4269431A now JC-560225P),
01 Oct 2009/01 Jun 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allces)

Hav Jatru Bhagat (No. 4266811N now JC-560226X),
01 Oct 2009/01 Jul 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav Dhananjay Adhikari (No. 4268867Y now JC-560227A),
22 Sep 2009/14 Jul 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
14 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ghanashayam Naik (No. 4265802A now JC-560228H),
25 Sep 2009/14 Aug 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
14 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Nirmal Kumar Mohanty (No. 4268882N now JC-
560229L), 22 Sep 2009/01 Sep 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Anjelus Bakhla (No. 4266891W now JC-560230A),
22 Sep 2009/01 Sep 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Steephan C (No. 4267757X now JC-560231H),
01 Oct 2009

Hav/Clk Kamal Singh Jhahhria (No. 4268864L now JC-
560232L), 01 Oct 2009

To be Nb Sub (GD)

Hav Pitha Charan Soren (No. 4270173X now JC-560202N),
20 Aug 2009/17 Jan 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
17 Jan 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ram Kumar Pandey (No. 4265734X now JC-560203W),
17 Aug 2009/01 May 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Kande Pahan (No. 4266423W now JC-560204Y),
06 Aug 2009/01 Aug 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Chimote Sukharam Kalu (No. 4268172W now JC-
560205F), 03 Aug 2009/01 Aug 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Baid Nath Prasad (No. 4266276Y now JC-560197N),
14 Jul 2009/01 Apr 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2009 without effect on pay and allces)

Hav Jaga Nath Karwa (No. 4265982N now JC-560198W),
11 Jul 2009/01 May 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Barmeshwar Raj (No. 4266038M now JC-560199Y),
30 Jul 2009/18 May 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
18 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Niranjan Kumar Roy (No. 4266011P now JC-560200H),
22 Jul 2009/27 May 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
27 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Kumar (No. 4266068K now JC-560201L),
22 Jul 2009/01 Jul 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Naresh Chand (No. 2989886X now JC-480435F),
14 Aug 2009/01 Apr 2009

Hav Yogendra Singh (No. 2986986F now JC-480436K),
06 Aug 2009/01 May 2009

Hav Devi Singh (No. 2987030F now JC-480437M), 23 Sep
2009/01 May 2009

Hav Lakhon Singh (No. 2986814H now JC-480438P), 17 Aug
2009/01 Jul 2009

Hav Ram Singh Chawara (No. 2987777M now JC-480439X),
01 Jul 2009

Hav Upendra Singh Beghel (No. 2986863L now JC-480440),
17 Aug 2009/01 Jul 2009

Hav Rajesh Singh (No. 2987606A now JC-480441P),
29 Aug 2009/16 Jul 2009

Hav Clk Kesarkar Balu Ganpati (No. 2986207K now JC-
480442X), 01 Aug 2009

Hav Ravi Kumar Singh (No. 2986831H now JC-480443A),
17 Aug 2009/01 Aug 2009

Hav Birendra Singh Baghel (No. 2986612F now JC-
480444H), 01 Aug 2009

Hav Ali Mohd Qazi (No. 2986608Y now JC-480445L),
01 Aug 2009

Hav Ramesh Chand (No. 2987399Y now JC-480446N),
01 Aug 2009

Hav Data Ram Gurjar (No. 2986493W now JC-480447W),
04 Sep 2009/01 Aug 2009

Hav Clk George P Joseph (No. 2986208M now JC-480450W), 01 Sep 2009

Hav Ghanshyam Singh (No. 13616703H now JC-480451Y),
01 Sep 2009

Hav Jaildar Singh (No. 2987108N now JC-480452F), 01 Sep
2009

Hav Tek Chand (No. 2986750H now JC-480453K), 13 Sep
2009/01 Sep 2009

Hav Ram Autar Singh Shekhawat, SM (No. 2988810L now
JC-480454M), 01 Sep 2009

Hav Sumer Singh (No. 2987898N now JC-480455P), 01 Sep
2009

Hav Devan Singh (No. 2987999F now JC-480456X), 01 Sep
2009

Hav Man Singh Gurjar (No. 2990562Y now JC-480457A),
01 Sep 2009

Hav Ramesh Chandra Gurajwar (No. 2985958Y now JC-480458H), 06 Sep 2009/04 Sep 2009

Hav Shiv Pratap Singh Kushwaha (No. 2987292K now JC-480459L), 30 Sep 2009/01 Aug 2009

Hav Om Singh (No. 2988391Y now JC-480460A), 03 Oct
2009/01 Aug 2009

Hav Santosh Kumar (No. 2988402A now JC-480461H),
03 Oct 2009/13 Aug 2009

Hav Jagdish Gurjar (No. 2989282Y now JC-480462L),
14 Oct 2009/01 Sep 2009

Hav Jhamoli Ram Gurjar (No. 2985535L now JC-480464W),
13 Oct 2009/01 Sep 2009

Hav Narpal Singh (No. 2985685F now JC-480465Y), 13 Oct
2009/01 Sep 2009

Hav Jaibeer Singh (No. 2987510X now JC-480466F), 30 Sep
2009/06 Sep 2009

Hav Bhale Ram (No. 2987566K now JC-480467K), 30 Sep
2009/06 Sep 2009

Hav Lal Bahadur Singh Bhadouria (No. 2988437W now JC-480471M), 09 Oct 2009/27 Sep 2009

Hav Dhiresh Kumar Singh (No. 2987588H now JC-480472P),
28 Oct 2009/29 Sep 2009

Hav Shiv Pratap Singh (No. 2987631Y now JC-480474A),
25 Oct 2009/30 Sep 2009

Hav Pooran Singh Shekhawat (No. 2988444M now JC-480475H), 09 Oct 2009/01 Oct 2009

Hav Satendra Pal Singh (No. 2988456F now JC-480476L),
09 Oct 2009/01 Oct 2009

Hav Gulab Singh Gurjar (No. 2987279A now JC-480478W),
20 Oct 2009/01 Oct 2009

Hav Zile Singh (No. 2988006K now JC-480479Y), 09 Oct
2009/01 Oct 2009

Hav Pralhad Singh (No. 2985962K now JC-480418F),
17 July 2009/11 May 2006

Hav Abhe Ram (No. 2986692K now JC-480419K), 01 May
2009

Hav Sundreshwar Singh (No. 2987633K now JC-480420Y),
01 May 2009

Hav Clk R Srinivasan (No. 2986194X now JC-480421F),
01 Jun 2009

Hav Clk Puran Chand (No. 2986195W now JC-480422K),
01 Jun 2009

Hav Chaman Singh Nagar (No. 2985565H now JC-480423M), 15 Jun 2009/01 Jun 2009

Hav Bharat Lal Gurjar (No. 2985204P now JC-480424P),
01 Jun 2009

Hav Anand Nand Dubey (No. 2990596M now JC-480425X),
01 Jun 2009

Hav Yashpal Singh (No. 2987100F now JC-480426A),
01 Jun 2009

Hav Clk Jagdish Singh (No. 2986203N now JC-480427H),
01 Jul 2009

Hav Clk Gawas Krishna Vithoba (No. 2986206P now JC-480428L), 01 Jul 2009

Hav Sujay Kumar Das (No. 8033191X now JC-480429N),
01 Jul 2009

Hav Bikram Singh (No. 2988159N now JC-480430H), 01 Jul
2009

Hav Jagdish Prasad Gurjar (No. 2987550Y now JC-480431L),
01 Jul 2009

Hav Surinder Singh (No. 2987238W now JC-480432N),
01 Jul 2009

JAK LI

To be Nb Sub (GD CAT)

Hav Ashok Kumar (No. 9088645W now JC-593779N),
25 Jul 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009)

Hav Ravinder Kumar (No. 9088655A now JC-593780H),
01 Aug 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009)

Hav Rachhpal Singh (No. 9088064Y now JC-593781L),
01 Aug 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009)

Hav Nisar Ahmad Bhat (No. 9102927H now JC-593782N),
17 Jul 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2009)

Hav Madan Lal (No. 9086456N now JC-593783W), 25 Jul
2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2009)

Hav Satish Kumar (No. 9088976X now JC-593784Y), 17 Jul
2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2009)

Hav Mohd Sadiq (No. 9094197L now JC-593785F), 04 Aug
2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2009)

Hav Himat Lal (No. 9088357K now JC-593786K), 17 Jul 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009)

Hav Jhangir Ahmed (No. 9088112H now JC-593787M),
15 Jun 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009)

Hav Ravinder Kumar (No. 9088523M now JC-593788P),
15 Jun 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009)

Hav Attar Hussain (No. 9088622P now JC-593789X),
15 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2009)

Hav Tilak Raj (No. 9089128L now JC-593790M), 17 Sep
2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2009)

Hav Davinder Kumar (No. 9089257L now JC-593791P),
19 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2009)

Hav Tuls Ram Gautam (No. 9088994A now JC-593792X),
23 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009)

Hav Dharam Paul (No. 9089261N now JC-593793A), 19 Sep
2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jul 2009)

Hav Arshad Ahmed (No. 9094188K now JC-593794H),
20 Aug 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009)

Hav Bhagwan Dass (No. 9087770W now JC-593795L),
01 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009)

Hav Nanak Chand (No. 9094318F now JC-593796N),
24 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009)

Hav Shadi Lal (No. 9088066K now JC-593797W),
27 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009)

Hav Rajesh Kumar (No. 9089213N now JC-593798Y),
23 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009)

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Vijay Sinha (No. 9094393L now JC-5937770Y),
06 May 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009)

Hav Clk Sanjeev Kumar Singhi (No. 3990896K now JC-
593777H), 01 Jul 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jun 2009)

Hav Clk Sajal Sukla Baidya (No. 3991188K now JC-593778L),
01 Aug 2009

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009)

JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Pawan Kumar (No. 13616550K now JC-580973K),
28 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 May 2009)

Hav Ishaque Ahamad Khan (No. 13751224P now JC-
580974M), 06 Jun 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 May 2009)

Hav Sudhir Pun (No. 13752468P now JC-580975P), 01 May
2009

Hav Kundan Lal (No. 13752093F now JC-580976X), 11 May
2009

Hav Amar Singh (No. 13751871P now JC-580977A), 01 Jun
2009

Hav Ashok Kumar (No. 13751116L now JC-580978H),
01 Jun 2009

Hav Gulzar Ahmad Mir (No. 13751227H now JC-580980A),
28 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Ghan Shyam Thakur (No. 13751355A now JC-580981H),
01 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Suresh Kumar (No. 13751377Y now JC-580982L),
30 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Bikram Singh (No. 13751314W now JC-580983N),
03 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Sukh Ram (No. 13751381F now JC-580984W), 01 Aug
2009

Hav Sant Ram (No. 13752094K now JC-580985Y), 01 Aug
2009

Hav Ramesh Chand (No. 13752367F now JC-580986F),
06 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Aug 2009)

To be Subs Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk Laxmikant Hotta (No. 3989136P now JC-580972F),
17 Apr 2009*

*(Gtd notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Apr 2009)

Hav Clk Sachin Samwanshi (No. 13753376P now JC-
580979L), 04 Jul 2009*

*(Gtd notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Jul 2009)

The Maratha LI

To be Nb Sub

Hav Dhanaji Khorate (No. 2787337P now JC-460071Y),
16 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Ramesh Chougala (No. 2784738Y now JC-460073K),
01 Sep 2009

Hav Barge Chandrakant D (No. 2787601X now JC-
460074M), 02 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
and allowances wef 01 Sep 2009)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Pratap Singh (No. 2783284K now JC-460072F),
01 Sep 2009

Hav Shinde Sharad Bapusaheb (No. 2785655N now JC-
460035N), 06 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
17 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Anil Crasta (No. 2787899M now JC-460036W), 13 Jul
2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
25 Feb 2009 without effect on pay and allowances).

Hav Gangurde Dnyaneshwar Deoram (No. 2786377K now
JC-460037Y), 03 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Krishna Yeshwant Shinde (No. 2782842N now JC-
460038F), 04 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
23 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Deshmukh Amarasinh Dattatray (No. 2785463H now
JC-460039K), 04 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
23 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dalvi Sandip Ramchandra (No. 2787928W now JC-
460040Y), 06 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
28 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Usman Nuchiyan (No. 2786307L now JC-460041F),
06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav More Sudam Kisan (No. 2786928K now JC-460042K),
08 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mane Dnyandeo Dattu (No. 2783759H now JC-
460043M), 06 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dhanba Sheshrao Manikrao (No. 2787034A now JC-
460044P), 08 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Kalangan (No. 2787195H now JC-460045X),
15 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kale Netaji Gopalrao (No. 2783530K now JC-460046A),
13 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
20 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Madhukar Patil (No. 2787017A now JC-460047H), 11
Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
20 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Masurkar Krishna Masanu (No. 2785520Y now JC-
460049N), 21 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chaudhary Dilip Pandurang (No. 2786533H now JC-
460050H), 06 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Adavayya Baragani (No. 2785054P now JC-460051L),
11 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Muthu TL (No. 2784247H now JC-460052N), 01 Jun
2009

Hav Patil Wakoji Shankar (No. 2783442N now JC-460053W),
06 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rudrappa Masannavar (No. 2786039M now JC-
460054Y), 21 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gorde Sanjay Punja (No. 2785482F now JC-460055F),
01 Jun 2009

Hav Gaikwad Rajendra Baban (No. 2787540L now JC-
460056K), 27 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Avinas Madhukar (No. 2787559K now JC-
460057M), 15 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Tapas Kumar Mazumdar (No. 2783204F now JC-
460048L), 01 Jun 2009

Hav Clk Nalawade Dilip Dhondiba (No. 2783242X now JC-
460058P) 01 Jul 2009

11 GR

To be Nb Sub

Hav Dharendra Lama (No. 9418892A now JC-634827A),
19 Jul 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef 01
Jun 2008)

Hav (Clk) Gorakh Nath (No. 9417998A now JC-634832L),
01 Aug 2008

Hav Uttar Kumar Rai (No. 9419169L now JC-634833N),
04 Aug 2008

Rect (RT) Damodar Prasad (No. 634834W now JC-634834W),
28 Mar 2009

Rect (RT) Arvind Kumar Mishra (No. 634835Y now JC-
634835Y), 28 Mar 2009

Hav Subash Rai (No. 9419420W now JC-634836F), 15 Nov
2008

(Granted notional seniority without effect on pay & allces
wef 01 May 2008)

Hav Bhaba Ram Shrestha (No. 9419380A now JC-634837K),
06 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Sep 2008)

Hav (Clk) Om Prakash (No. 9418339X now JC-634838M),
01 Oct 2008

Hav (Clk) Pratap Singh (No. 9418340M now JC-634839P),
01 Dec 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Oct 2008)

Hav Narendra Kumar Rai (No. 9418385M now JC-634840K),
01 Oct 2008

Hav Chhabi Raj Rai (No. 9418355P now JC-634841M),
26 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Oct 2008)

Hav Padam Bahadur Tamang (No. 9418359L now JC-
634842P), 26 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Oct 2008)

Hav (Musn) Ashok Rai (No. 9419108N now JC-634843X),
01 Oct 2008

Hav Suk Bahadur Subba (No. 9418418M now JC-634844A),
26 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Nov 2008)

Hav Dhan Bahadur Subba (No. 9418420K now JC-
634845H), 26 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Nov 2008)

Hav Lokendra Nembang (No. 9419546W now JC-634846L),
11 Feb 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Nov 2008)

Hav Tara Bahadur Rai (No. 9419616K now JC-634847N),
15 Nov 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
06 Nov 2008)

Hav (Clk) Kailash Chand Sen (No. 9417779Y now JC-
634848W), 01 Dec 2008

Hav Dipesh Rai (No. 9418147A now JC-634849 Y), 09 Dec
2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Dec 2008)

Hav Mahendra Kumar Limbu (No. 9419632F now JC-
634850N), 27 Dec 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Dec 2008)

Hav (Clk) Suresh Raut (No. 9418343A now JC-634851W),
01 Jan 2009

Hav (Clk) Rama Nand Sharma (No. 9418416F now JC-
634852Y), 01 Jan 2009

Hav Bhisma Kumar Shrestha (No. 9420478A now JC-
634853F), 01 Jan 2009

Hav Tej Man Limbu (No. 9418074Y now JC-634854K),
01 Jan 2009

Hav Bam Bahadur Subba (No. 9418545F now JC-634855M),
04 Jan 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jan 2009)

Hav Chandra Kumar Shrestha (No. 9418644K now JC-
634856P), 13 Jan 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jan 2009)

Hav Badan Rai (No. 9418652H now JC-634857X), 01 Jan
2009

Hav Rajendra Prakash Limbu (No. 9418640N now JC-
634858A), 01 Jan 2009

Hav Suk Raj Jabegu (No. 9419675W now JC-634859H),
11 Feb 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jan 2009)

Hav Amar Bahadur Rai (No. 9418178A now JC-634860X),
07 Mar 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Feb 2009)

Hav Suk Bahadur Angdembe (No. 9418375H now JC-
634861A), 01 Feb 2009

Hav Ram Kumar Limbu (No. 9418648A now JC-634862H),
05 Feb 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Feb 2009)

Hav Bikas Rai (No. 9418548P now JC-634863L), 01 Mar 2009

Hav Rudra Bahadur Pradhan (No. 9418692K now JC-
634864N), 02 Mar 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Mar 2009)

Hav Tej Bahadur Rai (No. 9418433F now JC-634865W),
27 Mar 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Mar 2009)

Hav Purna Bahadur Rai (No. 9418439H now JC-634866Y),
01 Apr 2009

Hav Santa Bir Tamang (No. 9418508N now JC-634867F),
01 Apr 2009

Hav Ram Bahadur Subba (No. 9418571H now JC-634868K),
01 Apr 2009

Hav Chet Bahadur Limbu (No. 9418350W now JC-
634869M), 13 Apr 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Apr 2009)

Hav Dhan Bahadur Rai (No. 9418593F now JC-634870F),
06 Apr 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Apr 2009)

Hav Pashupati Shrestha (No. 9418694P now JC-634871K),
01 Apr 2009

Hav Bijay Mukhia (No. 9418737Y now JC-634872M),
01 Apr 2009

Hav Tek Prasad Rai (No. 9419258K now JC-634812X),
27 Aug 2008

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Apr 2008)

Hav Karna Bahadur Pradhan (No. 9418574W now JC-
634873P), 01 May 2009

Hav Mahesh Kumar Limbu (No. 9418554H now JC-
634874X), 01 May 2009

Hav Dasrath Limbu (No. 9418602X now JC-634875A),
18 Jun 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 May 2009)

Hav Mangal Bahdur Tamang (No. 9418659M now JC-
634876H), 07 May 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 May 2009)

Hav Sant Bahadur Rai (No. 9418585H now JC-634877L),
07 Jun 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jun 2009)

Hav Shyam Prasad Rai (No. 9418672W now JC-634878N),
01 Jun 2009

Hav Ravi Rai (No. 9418696A now JC-634879W),
19 Jun 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jun 2009)

Hav Suk Lal Tamang (No. 9418738F now JC-634880L),
01 Jun 2009

Hav Prem Sing Lama (No. 9418745X now JC-634881N),
01 Jun 2009

Hav Shyam Bahadur Rai (No. 9418843X now JC-634882W),
01 Jul 2009

Hav Dirgha Bahadur Limbu (No. 9418856P now JC-
634883Y), 01 Jul 2009

Hav Pancha Raj Moktan (Tamang) (No. 9418756K now JC-
634884F), 10 Aug 2009

(Granted seniority without effect on pay & allces wef
01 Jul 2009)

Hav Suresh Kumar Tamang (No. 9418684L now JC-
634885K), 01 Jul 2009

Hav Chandra Bahadur Rai (No. 9418926H now
JC-634886M), 01 Aug 2009

Hav Ganesh Bahadur Lingdam (No. 9418774M now
JC-634887P), 01 Aug 2009

Hav Deo Man Limbu (No. 9418960H now JC-634888X),
15 Aug 2009

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Jeevan Thapa (No. 5451609H now JC-617940Y), 01 May
2009

Hav Budhi Bahadur Gurung (No. 5451614N now JC-
617941F), 02 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gir Bahadur Thapa (No. 5451626H now JC-617942K),
02 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5451453W now JC-
617944P), 01 Jul 2009

Hav Bhém Raj Gurung (No. 5450079M now JC-617945X),
01 Aug 2009

Hav Narayan Prasad Shrestha (No. 5450348N now JC-
617946A), 01 Aug 2009

Hav Jit Bahadur Thapa (No. 5450352W now JC-617947H),
01 Aug 2009

Hav Santa Bahadur Ghale (No. 5451547N now JC-617948L),
01 Aug 2009

Hav Yadav Thapa (No. 5451751M now JC-617949N),
01 Aug 2009

Hav Mani Sundar Magar (No. 5451632W now JC-617950H),
01 Aug 2009

Hav Him Lal Pun (No. 5450354F now JC-617951L), 01 Sep
2009

Hav Gyanendra Gurung (No. 5450002K now JC-617952N),
24 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
31 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Uman Singh Gaha (No. 5450661Y now JC-617953W),
03 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
05 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk/SD)

Hav/Clk Shamsheer Singh Chamlegi (No. 15362055X now
JC-617943M), 10 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun
2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Hon Shantilal Bhaskar Rao (No. 15361883W
now JC-617954Y), 15 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun
2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Gopal Prasad Panthi (No. 15362826F now JC-
617955F), 16 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jul
2009 without effect on pay and allowances)

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Lalit Bahadur Pun (No. 5751570A now JC-623888X),
06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Som Bahadur Gurung (No. 5751787K now JC-
623889A), 06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Bahadur Darlami (No. 5751835Y now JC-
623890P), 06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Khum Bahadur Gurung (No. 5751377H now JC-623891X), 06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Janga Bahadur Gurung (No. 5751485X now JC-623892A), 06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Suraj Gurung (No. 5752209F now JC-623901W), 01 Aug 2009

Hav Chandra Bahadur Pun (No. 5752026L now JC-623902Y), 23 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bir Bahadur Karki (No. 5751466M now JC-623903F), 02 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rudra Bir Chidi (No. 5752348L now JC-623904K), 05 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gyani Nath Rai (No. 5751567A now JC-623893H), 06 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Bahadur Thapa (No. 5752111N now JC-623894L), 01 May 2009

Hav Chandra Gurung (No. 5752191W now JC-623898F), 01 Jul 2009

Hav Khem Bahadur Burathoki (No. 5752343M now JC-623899K), 18 Jul 2009

Hav Purna Bahadur Budhathoki (No. 5752193F now JC-623900N), 01 Aug 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Parmeshwar Mandal (No. 5751032M now JC-623895N), 01 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Bapodra Vikram Arshibhai (No. 5751473H now JC-623896W), 25 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Chandra Shekhar Roy (No. 5752179P now JC-623897Y), 06 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Deo Narayan Yadav (No. 5752188W now JC-6238905M), 01 Sep 2009

THE PUNJAB REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Balwant Singh (No. 2479855F now JC-430600L), 10 Oct 2009

(Gtd ante dt seniority wef 14 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Kumar Sharma (No. 2481178N now JC-430601N), 01 Oct 2009

Hav Kabul Singh (No. 2479351N now JC-430602W), 08 Oct 2009

(Gtd ante dt seniority wef 03 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sansar Singh (No. 2479542H now JC-430603Y), 15 Oct 2009

(Gtd ante dt seniority wef 17 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Jasvir Singh (No. 2479577Y now JC-430604F), 21 Oct 2009

(Gtd ante dt seniority wef 06 Apr 2009 without effect on pay and allces)

CHM Jarnail Singh (No. 2479838F now JC-430605K), 03 Oct 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Virender Kumar Sharma (No. 2482173F now JC-430606M), 01 Nov 2009

Hav Satnam Singh (No. 2479384Y now JC-430607P), 20 Oct 2009.

(Gtd ante dt seniority wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Inder Dev (No. 2481283K now JC-430608X), 01 Nov 2009

To be Naib Subedar (Clk)

Hav/Clk Ananta Kumar Nayak (No. 2482026Y now JC-430569K), 19 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Mala Ram Deora (No. 2482076K now JC-430563H), 20 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Ganga Ram Vishnoi (No. 2482078P now JC-430570Y), 18 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Aswini Kumar Kalsa (No. 2482079X now JC-430571Y), 22 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Raj Kapoor Singh (No. 2481956N now JC-430565N), 28 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Subhash Chander Attri (No. 2478129A now JC-430566W), 04 Aug 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Raj Kumar Sharma (No. 2478458W now JC-430581L), 21 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Lal Bahadur Singh (No. 2479815A now JC-430567Y), 03 Aug 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Sabu S (No. 2480690A now JC-430572K), 22 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Ramu Patil (No. 2481338H now JC-430564L), 17 Jul 2009

(Gtd ante dt seniority wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kamala Kanta Sinha (No. 4359272P now JC-549850W), 18 Nov 2009/21 May 2009*

Hav Nripen Hazarika (No. 4360696X now JC-549860A), 01 Oct 2009*

*Seniority wef without effect on pay and allowances.

J ROY CHOWDHURY
Under Secy.